

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023—वैशाख 15, शक 1945

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ 5-02-2022-एक-(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-1906-(दो-1-4-2022) दिनांक 14 मार्च 2023 के अनुक्रम में दिनांक 21 दिसम्बर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत

दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023

क्र. एफ 5-13-2022-एक-(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर का ओ. एस. डी.-कम-पी. पी. एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-1314-(दो-1-12-2022) दिनांक 21 फरवरी 2023 के अनुक्रम में दिनांक 13 से 16 फरवरी 2023 तक चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश

का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रंजना पाटने, उपसचिव.

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र.-एफ 1(ए)148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, मध्यप्रदेश, जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर-पूर्व अंडमान-निकोबार द्वीप समूह (एक स्थान) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:—

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री डी. पी. गुप्ता, | — | स्वयं  |
| 2. श्रीमती सीमा गुप्ता, | — | पत्नी  |
| 3. कु. देवांशी गुप्ता,  | — | पुत्री |
| 4. कु. नैनिका गुप्ता    | — | पुत्री |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड्स, मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र.-एफ 1(ए)400-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पु. मु., भोपाल को दिनांक 19 से 28 मार्च 2023 तक दस दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. एफ-1-72-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 5 मई 2023 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ लंदन (UK) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

**विधि और विधायी कार्य विभाग**

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

फा. क्र.-1928-2023-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

फा. क्र.-1772-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री सत्यम अग्रवाल, विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 28 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है। उन्हें प्रतिमाह नियम मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास भट्टेले, अतिरिक्त सचिव।

**विभाग प्रमुखों के आदेश**

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 24 मार्च 2023

क्र. 4030-रीडर-2-2023.—भारत सरकार के उपक्रम गैल (इण्डिया) लिमिटेड, उज्जैन द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम काछिबडौदा, तहसील बदनावर के सर्वे क्रमांक 928/2, 929/2/2, में स्थापित सुरक्षा वाल्व एस. वी. स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बदनावर, जिला धार के पत्र क्रमांक 2274/रीडर-1/2022 बदनावर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तहसीलदार तहसील बदनावर से स्थल की जांच कराई गई। ग्राम काछिबडौदा स्थित भूमि सर्वे नंबर 928/2 रकबा 0.140 हैक्टेयर एवं 929/2/2 रकबा 0.540 हैक्टेयर भूमि पर गैल (इण्डिया), लिमिटेड के सुरक्षा वाल्व (एस. वी.), स्टेशन स्थित है। यह वाल्व स्टेशन गैस पाईप लाईन पर ही स्थापित किया गया है। उक्त स्थल में किसी प्रकार को अतिक्रमण एवं दखल नहीं है। एसवी स्टेशन स्थल पर एक पक्का भवन नियंत्रण कक्ष के रूप में बना है जिसमें आधुनिक मशीनें व सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं। कक्ष का उपयोग तकनीकी कार्यों हेतु किया जाता है तथा स्थल की समुचित सुरक्षा हेतु सुरक्षागार्ड 24 घंटे तैनात रहता है। उक्त स्थल संवेदनशील होने से आसामाजिक तत्वों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को किये जाने की संभावना एवं जन सुरक्षा की दृष्टि एवं लोक हित में एसवी स्टेशन स्थल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

(3) उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि “हाजिरा-विजयपुर” गैस पाईपलाइन एस. वी. स्टेशन स्थल संवेदनशील क्षेत्र होकर अत्यन्त ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईपलाइन के माध्यम से होने व पाईपलाइन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है।

अतः गैल (इण्डिया), लिमिटेड के आवेदन-पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 28 के प्रावधानान्तर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :—

**अनुसूची**

स्टेशन (1)	भूमि ग्राम (2)	सर्वे क्रमांक एवं रकबा (3)	एस. वी. स्टेशन की चतुर्थसीमा (4)
एस. वी.	ग्राम	928/2 रकबा 0.140	पूर्व
	काछिबडौदा	हैक्टेयर एवं 929/2/2	पश्चिम
	तहसील	रकबा 0.540 हैक्टेयर.	उत्तर
	बदनावर		दक्षिण
	जिला धार.		

भूमि सर्वे क्रमांक 914 (रास्ता)  
भूमि सर्वे क्रमांक 1017  
भूमि सर्वे क्रमांक 923/4  
भूमि सर्वे क्रमांक 928 का शेष भाग

**शर्तें तथा प्रतिबंध.—**

(1) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा।

(2) जहां (1) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये जिसने अनुज्ञा दी है।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(5) संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे।

(6) किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल (इण्डिया), लिमिटेड उज्जैन का होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी।

**राज्य शासन के आदेश****राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 08-अ-82-2020-21.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	महाराजपुर	मनकारी (बड़ी पट्टी)	0.009	अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव.	मुख्यमंत्री नलजल योजना

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. 2716-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—झिलमिली,  
प.ह.नं.-39,  
ब. नं.-110,  
रा. नि. मं.-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल— कुल रकबा-0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
215/1/1	0.010
214/1	0.039
215/2	0.089
217/1	0.051
217/2	0.048
216/1	0.025
218/1	0.032
218/2	0.115

(1)

128/1

(2)

0.226

योग. . कुल रकबा-0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01, तहसील चौरई के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पटले कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप V

(नियम 10 देखें)

[ धारा 19(1) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन  
सचिव, राजस्व विभाग ]

क्र. 64-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

रा. मा. क्र. 02-अ-82-2021-22 मौजा ग्राम-बरांझ प. ह. नं.-133 तहसील-गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम बरांझ, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर में कुल 1.378 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो 1.378 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम-बरांझ, तह. गाडरवारा नं. बं. प. ह. नं. 133

क्र. सं.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	खसरा नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महेन्द्र वल्द मर्दन सिंह कौरव, सा. बरांझ	154/3/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.279
2	रामकुमार वल्द सत्यनारायण कौरव सा. बरांझ	156/2/1 156/2/3	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	सिंचित सिंचित	0.303 0.109
3	मनोज कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सा. बरांझ	157/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.202
4	जागेन्द्र कुमार वल्द पवन कुमार जाग्रति पत्नी जागेन्द्र कौरव सा. बरांझ.	161/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.024
5	केहर सिंह वल्द हल्के कौरव सा. बरांझ	248/1/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.178
6	परशोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव सा. गाडरवारा	132/1	भूमि स्वामी	सिंचित	0.283
कुल . .					1.378

(1) यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांच करने के पश्चात् की गयी है।

(2) नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

(3) कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

(5) जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

प्रारंभिक अधिसूचना  
(देखिये धारा 11)

क्र. 109-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2023

रा0मा0 क. 01/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- मनकवारा प.ह.नं.-132 तहसील- गाडरवारा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रिटर्न रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा परियोजना के निर्माण से एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रिटर्न रेल लाइन निर्माण के लिये अधिग्रहित की जा रही भूमि के भूमि स्वामियों का विस्थापन नहीं हो रहा है। यह अधिग्रहण रेखीय अधिग्रहण की श्रेणी में आता है जिसमें सार्वजनिक लोक प्रयोजन के स्थल अप्रभावित है। एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना की प्रथम ईकाई से नियमित विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रिटर्न रेल लाइन निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है। रिटर्न रेल लाइन निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। रिटर्न रेल लाइन के निर्माण हेतु चयनित भूमि रिटर्न रेल लाइन के निर्माण के लिये पूर्णरूप से उपयुक्त है तथा समिति के मतानुसार चयनित भूमि के स्थान पर अन्य भूमि पर रिटर्न रेल लाइन का निर्माण किया जाना उचित नहीं है इस कारण चयनित भूमि का रिटर्न रेल लाइन निर्माण हेतु अर्जन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

**अनुसूची 1**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम          | एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना में कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रिटर्न रेल लाइन निर्माण |
| 2. भूमि का विवरण            |  |
| 1. जिला                     | नरसिंहपुर  |
| 2. तहसील                    | गाडरवारा   |
| 3. ग्राम                    | मनकवारा  |
| 4. प.ह.न.                   | 132  |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.428  |

## अनूसूची 2

क्र०	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	मालगुजार वल्द अशोक कुमार ब्रम्हण, रीता वल्द अशोक कुमार ब्रम्हण, राहुल वल्द राम मनोहर ब्रम्हण, रागिनी वल्द रामनोहर, रोहित वल्द राम मनोहर, वर्षा पत्नि विपिन दिक्षित, राधा पत्नि राम मनोहर ब्रम्हण, मीनेश वल्द अनिल ब्रम्हण सा. देह	भूमि स्वामी	24	0.428
	कुल			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा., 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं.-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र.-24-अ-82-उ.म.रे.-भू-अर्जन-नेपरी-अति-3690-2022-23

मुरैना, दिनांक 18 अप्रैल 2023

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सिंहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यामपुरकलां रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम-नेपरी तहसील-कैलारस, उपखण्ड-सबलगाढ़, जिला-मुरैना में कुल रकबा 0.1263 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना, तहसील-कैलारस के ग्राम-नेपरी, प0ह0न0-09, स0नि0वृत्त0-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.1263 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र.सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	461	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.0427	कमला बेवा प्रहलाद जाति तेली हि0 1/ भूमिस्वामी राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी लोकेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी रामलता पुत्री प्रहलाद हि0 1/5 भूमिस्वामी मीना बेवा मातादीन जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना हि 1/15 भूमिस्वामी मोनू पुत्र मातादीन राखी पुत्री मातादीन सभा नाबा0 सर मा0 मीना खुद जाति तेली हि0 2/15 भाग भूमिस्वामी पता नेपरी कैलारस मुरैना।
2	464	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.0020	माखन करणसिंह सुन्दरलाल आ0 मंगलिया तेली पता नेपरी भूमिस्वामी। सुलखा पुत्री मंगलिया जाति तेली पता नेपरी समान भाग मु सोनी बेवा रामानन्द जाति तेली पता नेपरी आधिपत्य कृषक मदन पुत्र रघुनाथ जाति ब्राह्मण पता नेपरी समान भाग आधिपत्य कृषक।
3	1011	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.0203	मु सावित्री बेवा रामचरन रामबाबू विनोद आ रामचरन हि 1/2 मु बसंती बेवा गोपी मातादीन लाला दिनेश पि गोपी फूलवती शकुन्तला ललिता राजकुमारी कवित पुत्री गोपी हि 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
4	1012	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.0613	मु कलावती बेवा लक्खा सरवन रामप्रकाश, रामवीर, पुत्रगण लक्खा गुडडी उर्फ रामबेटी पुत्री लक्खा राठौर समान भाग जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी।
कुल04सर्वे नं0 में				0.1263	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगाढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उपर अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या घेदन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र.क्र.-23-अ-82-भू-अर्जन-3691-2022-23

**अधिसूचना (सामाजिक समाघात निर्धारण )**  
(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत)

राज्य सरकार/समूचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत करूआ तहसील बामौर के परामर्श से निम्न भूमियों का (सामान्य उचाई वाले भूमिगत रेलवे पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण) हेतु अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है अध्ययन के कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों एवं म0प्र0 पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 अनुसार किया जाएगा।

1	परियोजना विकासक का नाम	उप मुख्य इंजिनियर निर्माण उ0म0 रेलवे ग्वालियर
2	भूमि के प्रस्तावित अर्जन के प्रयोजन	सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण
3	अध्ययन कार्य हाथ में लेने वाले समाजित समाघात निर्धारण दल के विवरण	1. अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुरना 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 3. तहसीलदार बामौर 4. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम करूआ 5. पटवारी ग्राम करूआ 6. सचिव ग्राम पंचायत करूआ
4	भूमि का विवरण	
5	जिला	मुरैना
6	तहसील	बामौरकलां
7	ग्राम/नगर	करूआ
8	कुल प्रभावित क्षेत्र	0.0743 हेक्टेयर
9	अर्जित होने वाले क्षेत्र	खसरा न0 990, 1105/1, 1105/2, 1106 रकबा कमश: 0.0036, 0.0145, 0.0344, 0.0218
10	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण ग्राम करूआ तहसील बामौर जिला मुरैना।
11	परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित क्षेत्र	परियोजना क्षेत्र 0.0743 एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.0743
12	क्या ग्रामसमाओं या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	हाँ
13	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

प्र.क्र.-05-अ-82-भू-अर्जन-2019-20-आसन बैराज-3756-2023

मुरैना, दिनांक 20 अप्रैल 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के-निषम-10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम-इटावली, प0ह0क्र0 121 रा0नि0वृत्त- तहसील- जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 11.613 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- इटावली प0ह0क्र.121 राजस्व वृत्त- तहसील-जौरा, उपखण्ड -जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

### अनुसूची

1. भूमि का वर्णन
    - क. जिला- मुरैना
    - ख. तहसील- जौरा
    - ग. ग्राम- इटावली
    - घ. लगभग क्षेत्रफल 11.613 हे0
- भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	48 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	रामवीर बनवारी पि. पाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसदुआ ग्राम लोहाबसई समान भाग भूमि

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					स्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 10.00
2.	172/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.370	प्र० क्र० 0193/बी-121 2021-22
3.	256	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.640	प्र० क्र० 0194/बी-121 2021-22
4.	276	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.261	तुकाराम दत्तक पुत्र महानन्द जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.06
5.	496 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.152	लालजीत सिंह रामेन्द्र सिंह सतेन्द्रसिंह पुत्रान हमीरसिंह स.भा. 1/2 बलवीर सिंह कौशल सिंह बालजीत विनोद पुत्रान उदयभानसिंह स.भा. 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.62
6.	662/1108	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	3.020	मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह कल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह स०भा० हि० 1/2 रामहेत जगदीश रामाधारसिंह पुत्रान फूलसिंह माया शीला पुत्रियाँ फूलसिंह हि० 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसटुआ ग्राम लोहाबसई भूमि स्वामी
7.	670/1110	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह लल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह समान
	671/1111	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	



स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					भाग जाति गुर्जर पता निवसी मजरा धसटुआ का पुरा ग्राम लोहाबसई भूमि स्वामी
8.	672/1112	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.815	रामनाथ, पप्पू उर्फ कप्तान पुत्रान
	673/1113	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	मचलसिंह स० भाग हि० 2/10
	674/1114	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199	जाति गुर्जर भूमि स्वामी सरजू
	675/1115	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	मुड्डी उर्फ कम्पूरी पुत्रियाँ मचलसिंह स०भा० हि० 2/10 जाति गुर्जर भूमि स्वामी आशीष, विष्णु पुत्रान सियाराम स०भा० हि० 2/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी प्रीति पुत्री सियाराम हि० 1/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी राजाबेटी पुत्री पोखनसिंह हि० 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बमूरबसई भूमि स्वामी वृत्त-7 सुमावली में प्र.क्र. 0123/बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है।
9.	676/1116	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.428	गोलईया पुत्र धनसुख हि० 1/6 भूमि स्वामी अनारसिंह मुंशीलाल पुत्रान दोजी कलावती फूलो गीता दुलाई पुत्रियाँ दौजी समान भाग हि० 1/12 भूमि स्वामी रामदीन पुत्र फददी शांती पुत्री फददी हि० 3/12 भूमि स्वामी ललईया सामलिया

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
					मोहनलाल पुत्रान बहाली हि० 1/6 भूमि स्वामी हलुके ओछा पुत्रान धनसुखा रधुआ पुत्र गोलईया सुधई बटाली ओछा पुत्रान दौजी मांगी पुत्र मूला सुखुआ पुत्र चिकुआदामोदर पूरन शिवनारायण लाखन पुत्रान पीत रुमिला शीला नर्मदा पुत्रियाँ चीतू मूला पुत्री देवी हि० 1/6 जाति जाटव पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी वृत्त-7 सुमावली में प्र.क्र. 0195/बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है।
10.	680/1120	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	पंजाब सिंह पुत्र दुर्गा जाति गू० ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44
	681/1121	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	
	682/1122	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	
	683/1123	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
	684/1124	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	
	685/1125	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	
	686/1126	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	
	687/1127	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.376	
	688/1128	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	
	689/1129	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	
	690/1130	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	
	691/1131	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	

स.क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
	692/1132	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575	
11.	694/1134	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	सियाराम रामजीलाल भुजबल पुत्रान
	698/1138	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.233	टीकाराम शांती कटोई पुत्रियाँ टीकाराम समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी मजरा मुरहान ग्राम कैमारी भूमि स्वामी
12.	699/1139	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.368	गब्बर सिंह, देवेंद्रसिंह, तहसीलदारसिंह, रामहेत पुत्रान परिमाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी चन्द्रपुरा भूमि स्वामी
13.	697/1137	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.408	छविरामसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी
14.	708/1148	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	हरीसिंह परषोत्तम सुमेरसिंह पुत्रान
	709/1149	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	मोहनसिंह हि० 6/7 बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह हि० 1/7 जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमि स्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 1.75
15.	710/1150	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.345	बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमि स्वामी
	कुल किता 34			11.613 हे०	

1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या क्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-2986-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

**अनुसूची**

- 1- ग्राम का नाम :-कुकलाह ब.नं.-27 प.ह.नं.-36  
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी  
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-2.40 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिचा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	प्रमोद, प्रदीप, राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी शशिबाई प्रीतिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	प्रमोद, प्रदीप बौरा पिता मेरसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	पैच व्यपवर्तन परियोजना की नहर	-	-	-	-
2	24/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-
3	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-

4	24/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	कुंजभवन बगैरा पुत्र पुत्री परतापसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
5	14/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	भगवानदास पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	नान्हो बगैरा पिता पुनू की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	प्रमोद, प्रदीप बगैरा पिता मेरसिंह की भूमि				
6	14/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंजभवन बगैरा पुत्र पुत्री परतापसिंह की भूमि	नान्हो बगैरा पिता पुनू की भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
7	23	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	कुंजभवन रामलखन, जगदीश पुत्रपरतापसिंह जानकीबाई, पुत्री परतापसिंह, रामोबाई बेवा परतापसिंह जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि				
8	16/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	बंजारी पुत्र मिगनू जाति मेहरा पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	मालती पति मिगनू बगैरा की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि				
9	16/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अर्जुनसिंह पुत्र कमलसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	बंजारी पुत्र मिगनू मेहरा की भूमि				
10	53	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अनुज नाबालिग पुत्र रामकुमार संरक्षक माँ सुशील पति रामकुमार जाति बागरी पता बडी पुलिस लाइन सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	दादूराम, दयाराम बगैरा पिता चरारा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	घनश्याम पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा				

11	48/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मूरतसिंह पुत्र तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	संतलाल पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	गणू पुत्र भगवत बागरी बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन नाला	-	-	-	-
12	47	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	गणू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुधरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, फुल्लो पुत्री गोधन जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	लीलम पिता तेजलाल की भूमि	-	-	-	-
13	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि	गणू पुत्र भावत बागरी की भूमि	-	-	-	-
14	44/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	राजकुमार पिता प्रहलादसिंह की भूमि	-	-	-	-
15	43/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि	-	-	-	-
16	43/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	-	-	-	-
17	283/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	-	-	-	-

18	283/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बैरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि			
19	285/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बैरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि			
20	285/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र न. इनवंतसिंह, रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि			
21	121/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	अयजनेसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि			
22	121/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि			



23	122/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि				
24	122/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पुत्र धानसिंह की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	रमनिया पिता बदकू गोंड की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा				
25	123/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	अर्जुनसिंह पुत्र धानसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	काशीराम बगैरा पुत्र चैतराम की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि				
26	136/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	अरविंद पिता जगतसिंह की भूमि	अयजनसिंह पिता काशीराम बगैरा की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा				
27	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सिलोचनाबाई बेवा गिरवरसिंह जाति बागरी रवीन्द्र, अरविंद पुत्र गिरवरसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	शिवसिंह पिता शोभाराम की भूमि				
28	131	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	श्यामा पत्नी भारमल की भूमि				

29	137/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की	सुषमा पुत्री जगतसिंह की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
30	137/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की	अभिलाषा पिता भगतसिंह की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	138/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	भगतसिंह पिता रामदयालसिंह की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	शिवनंदन पिता ददूआ की भूमि	सुषमा पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	योग			2.40									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-3131-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम :-खामखरेली ब.नं.-113

2- रा.नि.म. :- बंडोल

तहसील:-सिवनी

प.ह.नं.-39

जिला:-सिवनी

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 7.92 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म प्रजाति	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	43/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	नवनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल एकता कालोनी सिवनी जाति अग्रवाल पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (भू-जल)	नवनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	नवनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	कुबर बगैरा पुत्र असाढ़ की भूमि	-	-	-	-

2	42	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	कुबर, रोहणी, लक्ष्मन बिहारी, लक्ष्मी, प्यारी पिता असाडु हुलिया वि. असाडु गिरधी मोहना सुखबती भूमिस्वामी, नीपा पुत्रगण बैसाखु गारसी वि. बैसाखु जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (रास्ता)	नबनीत पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-
3	38	भूमिस्वामी	कृषि	0.70	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (रास्ता)	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
4	39/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति गाडरी की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
5	39/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.53	हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति गाडरी पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	विजेश पुत्र मुंसी की भूमि	शासकीय(रास्ता)	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
6	34/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	मु.समनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	शासकीय (रास्ता)	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	बिसराम पुत्र कलसराम की भूमि	-	-	-	-
7	34/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामबगस पुत्र तुलसराम की भूमि	शासकीय (रास्ता)	इड्डुआ पुत्र छट्टु जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-

8	83	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मुकुन्दो बेवा रमला जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	मुसमनाबाई पुत्री मुसमनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मुकुन्दो बेवा रमला जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-
9	84	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	झडूआ पुत्र छुट्टु जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	मुसमनाबाई पुत्री कलसराम जाति गोड की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मुकुन्दो बेवा रमला जाति गोड की भूमि	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
10	86/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	सेमबतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद जाति गोड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	बिसराम पुत्र कलसराम जाति गोड की भूमि	अलका बेवा मुरारीलाल जाति अग्रवाल की भूमि	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा की भूमि	शासकीय (रास्ता)	-	-	-	-
11	87	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय(रास्ता)	मंगोबाई पत्नी रामचरण अहीर की भूमि	रामबती बेवा ब्रजलाल बागरी की भूमि	सेमबतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद जाति गोड की भूमि	-	-	-	-
12	88	भूमिस्वामी	कृषि	0.63	मंगोबाई पत्नी रामचरण जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामबती बेवा ब्रजलाल बागरी की भूमि	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	शासकीय(चारागाह)	जमनसी, मंगलसी, बगैरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	-	-	-	-
13	98/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	आशीष वामने राजेश कुमार वामने पिता श्री मेहतर लाल वामने पुत्र महतरलाल जाति रहममेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	धिलिया पिता रोवन मेहरा की भूमि	धिलिया पिता रोवन मेहरा की भूमि	निशा पत्नी प्रदीप मेहरा की भूमि	धिलिया पिता रोवन मेहरा की भूमि	-	-	-	-

14	97/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	धिलिया पिता रोचन जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	शासकीय (चारागाह)	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	जमनसी, मंगलसी, बौरा पुत्र पंचम, जाति अहीर की भूमि	-	-	-	-
15	101/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.41	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाई पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	आशीष, राजेशकुमार पिता मेहतरलाल वामन की भूमि	रामप्यारी पत्नी राजकुमार सेन की भूमि	शिवकुमारी बेबा धनकुमार सेन की भूमि	शासकीय (म-जल)	-	-	-	-
16	102	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	रामप्यारी पत्नी राजकुमार सेन जाति नाई पता सुभाष वार्ड सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाई की भूमि	शासकीय (म-जल)	शासकीय (रास्ता)	राजकुमार पुत्र दशरथलाल जाति नाई की भूमि	-	-	-	-
17	194/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	आशीष, राजेश पिता श्री मेहतर लाल वामन जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय(म-जल)	घनश्याम पिता खरगराम जाति मेहरा की भूमि	शासकीय(म-जल)	कालकाप्रसाद पिता शिवप्रसाद गहलोद की भूमि	-	-	-	-
18	193	भूमिस्वामी	कृषि	0.52	घनश्याम पिता खरगराम जाति मेहरा पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	कालकाप्रसाद पिता शिवप्रसाद गहलोद की भूमि	विजयकुमार पिता खरगराम मेहरा की भूमि	शासकीय (म-जल)	मेहतर पुत्र श्यामी गौड की भूमि	-	-	-	-
19	220	भूमिस्वामी	कृषि	0.45	कोमलप्रसाद पि. रायसिंह जाति मेहरा पता सा. देह. भूमिस्वामी	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	विजयकुमार पिता खरगराम मेहरा की भूमि	घनश्याम पिता खरगराम मेहरा की भूमि	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	-	-	-	-

20	219	भूमिस्वामी	कृषि	0.78	मनमोहन पिता धिलिया जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	रामकली बेवा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	कोमलप्रसाद पि. रायसिंह जाति मेहरा की भूमि	घनश्याम पिता खरगराम मेहरा की भूमि	शासकीय (वन)	-	-	-	-
21	197	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	रामकली बेवा बाबूलाल कन्हार पुत्री सुमेरी बादामी पुत्री सुमेरी सुदामाबाई पुत्री सुमेरी बसोड़ी पुत्र दासी जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	मनमोहन पिता धिलिया मेहरा की भूमि	जमनवती बेवा आदेश जाति गोंड की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
22	198	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	अशोक पुत्र महतर गोंड की भूमि	रामकली बेवा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	रामकली बेवा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
23	196	भूमिस्वामी	कृषि	0.21	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	गिरजा पुत्री महतर गोंड की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	जमनवती बेवा आदेश जाति गोंड की भूमि	रामकली बेवा बाबूलाल जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
24	195/1/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	गिरजा पुत्री महतर जाति गोंड पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	सुमेती पुत्री रमला जाति गोंड की भूमि	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	झड़ूआ पुत्र छुट्टु जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
25	205	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	गिरजा पुत्री महतर गोंड की भूमि	निलेश पिता अशोक शुक्ला की भूमि	पुलाराम पिता किशन गोंड की भूमि	-	-	-	-

26	195/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्ला पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय भूमि	स्वयं की भूमि	स्वयं की भूमि	शासकीय भूमि	-	-	-	-
27	15	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	दयाराम पुत्र बिसनु मनीबाई बेवा दादूराम रामगोविंद संतकुमार, रामकृष्ण, धरंजन, निरंजन, कृष्णाबाई, सदाबाई पिता दादूराम जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	गुलसराम बगैरा पिता फकीरचंद की भूमि	शासकीय(वन)	शासकीय(वन)	देवेन्द्रकुमार पुत्र उत्तमसिंह की भूमि	-	-	-	-
28	14/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	गुलसराम फूलसा अमरसिंह गुलसो बुद्धो अनारकली पिता फकीरचंद कपूरिया ध0प0स्व0 फकीरचंद जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकीय (वन)	दयाराम पुत्र बिसनु जाति अहीर की भूमि	शासकीय (वन)	मुंशी पिता अमीरचंद यादव की भूमि	-	-	-	-
29	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	तुलसी, मुन्शी, रूपचंद, सरूपचंद, तेजलाल, सरस्तबती पिता अमीरचंद फुल्लो बेवा अमीरचंद जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	चैनवती पत्नी सेवकराम की भूमि	कंचन पुत्र चतरु जाति अहीर की भूमि	शासकीय (चारागाह)	चैनवती पत्नी सेवकराम की भूमि	-	-	-	-



30	9/2/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	जमनसी, मंगलसी, कन्हैया, रामचरण, जमनी, अमनिया पिता पंचम सुखमन पिता रोहनलाल सियाराम, जयराम, संगीता, पिता सुखमन जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (वन)	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (चारागाह)				
31	9/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.33	श्रीमति चैनवती पत्नी सेवकराम जाति मेहरा पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	विनोद पुत्र भोजलाल ब्रम्हण की भूमि	शासकीय (वन)	तुलसी नगेश पुत्र अनोरचंद जाति अहीर की भूमि	शासकीय (सू-जल)				
32	23/1	अहस्तांतरणीय भूमिस्वामी	कृषि	0.10	जमनसी मंगलसी कन्हैया रामचरण जमनी अमनिया सुखमन पिता पंचम सियाराम जयराम संगीता पिता सुखमन तपशिला पत्नी पंचम जाति अहीर निवासी खामखरेली भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद की भूमि	शासकीय (रास्ता)	मंगोबाई पत्नी रामचरण की भूमि	अल्का बेवा पुरीलाल की भूमि				
33	24/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	श्रीमति अल्का बेवा मुरारीलाल अग्रवाल श्वेता उर्फ शशि नवनीत पिता मुरारीलाल अग्रवाल निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सेमबतीबाई पत्नी नारायणप्रसाद की भूमि	जमनसी मंगलसी नगेश पुत्र पंचम की भूमि	गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद की भूमि	शासकीय (रास्ता)				
34	12	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कचन पुत्र चतरु जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी भूमिस्वामी	तुलसी पिता अनोरचंद की भूमि	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (चारागाह)	शासकीय (वन)				
योग				7.92									

- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्रों पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।
- अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

क्र.-3132-जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- 1- ग्राम का नाम :—थॉवरी ब.नं.:—264 प.ह.नं.:— 37  
 2- रा.नि.मं. :—बंडोल तहसील:—सिवनी जिला:—सिवनी  
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:— 0.80 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कमांक	प्रकार का स्वामित्व	प्रकार का भूमि	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म प्रगति	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	293/5	भूमि स्वामी	कृषि	0.07	रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोड़ पता सा. देह भूमि स्वामी अस्तान्तरणीय	सरहद	अनित गणेवाल पिता गुलाबदास	पिता सुहागाबाई पिता हरिशचंद्र	पिता फूलसिंह पिता छिंदी	-	-	-	-

2	293/6	भूमि स्वामी	कृषि	0.42	फूलसिंह पिता छिद्दी श्यामकली पत्नि फूलसिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय	सरहद	बिन्दे पिता दबेजी	रसलाल पिता जंगलू	सरहद	-	-	-	-
3	293/9	भूमि स्वामी	कृषि	0.09	बिन्दे पिता दबेजी जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय	फूलसिंह पिता छिद्दी	प्रभू ना.बा.प्रभा पिता रामजी	रसलाल पिता जंगलू	रमेश पिता छिद्दी	-	-	-	-
4	293/7	भूमि स्वामी	कृषि	0.22	रमेश पिता छिद्दी मुन्नी पति रमेश जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय	फूलसिंह पिता छिद्दी	म. गंगाबाई पति केशरी	भूरमल पिता उदय	सरहद	-	-	-	-
	योग	-		0.80									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/बिक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र.-1573-भू-अभि-वन-राजस्व ग्राम-2023

बैतूल, दिनांक 24 अप्रैल 2023

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ-23-2/2021/25-3/384 दिनांक 22-4-2022 एवं परिपत्र एफ-23-2/2021/25-3/484 दिनांक 26-05-2022 एवं द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में जिला बैतूल की तहसील बैतूल के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों धाराखोह, सिहारी, पहावाड़ी, मोपाली, साजपुर तहसील चिचोली के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों कुरसना, टाण्डा, दरियावगंज, बरखेड़ा, बालाडोंगरी, गवासेन, खोखराखेड़ा, देवदान, मोहनपुरा, तहसील भैसदेही के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों जूनापानी, मालेगांव, जनोना, मालनी साकली, बुराहनपुर भोडियाकुड, घोघाल, तहसील आठनेर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बागवानी, ठेसका, पलासपानी, छिंदवाड़ा, मातका, घायवानी, आमढाना, पाट, बैरमढाना तहसील भीमपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बेहडा, पालंगा लापा, चूनाभूरू टाकझिरी चिखल्दा, तावडी, आमपठार हर्रा, डढारी, बूचाखेड़ा, घुटिया, निशाना, आमढाना, इमलीडोह, सीतापुर, करजीडोल कोल्हूढाना, तहसील आमला के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बिच्छूखान, लादी, कुण्डारा, भालदेही, दुठामा, तहसील प्रभातपट्टन के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों सीवनपानी, तेलिया, पिपरिया, जोगीखेड़ा, धामनधस, कालापखान, कुण्ड, झुनकारी, तहसील शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बूढीमाई, पाट, बरेठा, हांडीपानी धार, कुप्पा, बोड, सांवरिदा, मैदाखेड़ा, डूडर, झिल्पा, सेल्दा, कालापानी, कोठा, मूढा तहसील धोड़ाडोंगरी के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बाकुडकोल, जुआझर केवलाझिरी, ईमलीखेड़ा, हीरापुर, चोपना, कोहल्या बीजादेही, अर्जुनगोंदी, बांसबोडी, घोघरा, भतोड़ी पूंजी रामपुर को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना है।

उक्त वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव दावा ग्रामस्तरीय, उपखण्ड स्तरीय वन समिति की अनुशंसा अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया है।

तदनुसार सूची में वर्णित जिला बैतूल के तहसीलवार निम्नानुसार सूची के अनुसार कुल 94 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाता है।

### अनुसूची

क्र.	जिला	तहसील	वनग्राम का नाम/परिक्षेत्र का नाम/वनकक्ष क्रमांक	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वनविभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्ताक्षरित की जाने वाली की भूमि का क्षेत्रफल(हे. में)	वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाये जाने वाले ग्राम की चतुर्थ सीमायें
1	2	3	4	5	6	7
1	बैतूल	बैतूल	वनग्राम धाराखोह / बैतूल / कक्ष क.आर. एफ 268,270,269	धाराखोह	80.730	उत्तर-वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268,269 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 270 पश्चिम- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268

2	बैतूल	बैतूल	वनग्राम सिहारी / बैतूल (सा.) / कक्ष क.आर. एफ 272, 271	सिहारी	59.210	उत्तर-रैयतवारी खेकरी दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 271 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 272 पश्चिम- रेल्वे स्टेशन धाराखोह
3	बैतूल	बैतूल	वनग्राम पहावाडी / रानीपुर(सा.) / कक्ष क.आर. एफ 494बी	पहावाडी	42.000	उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 495 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 497 पश्चिम-वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494
4	बैतूल	बैतूल	वनग्राम भोपाली / रानीपुर(सा.) / कक्ष क.आर. एफ 506बी	भोपाली	103.540	उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पश्चिम-राजस्व ग्राम जांगडा गुवाडी
5	बैतूल	बैतूल	वनग्राम साजपुर / रानीपुर(सा.) / कक्ष क.आर. एफ 283बी	साजपुर	56.760	उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 283 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 497 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 282 पश्चिम-वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 283
6	बैतूल	चिचोली	वनग्राम कुरसना / गवासेन / व.कक्ष क. 48बी	कुरसना	126.275	उत्तर- आर.एफ 15 दक्षिण- आर.एफ 49 पूर्व- आर.एफ 47 पश्चिम-आर.एफ 55
7	बैतूल	चिचोली	वनग्राम टाण्डा / गवासेन / व.कक्ष क. 38 बी	टाण्डा	273.300	उत्तर- आर.एफ 38, 71 दक्षिण- आर.एफ 47 पूर्व- आर.एफ 37 पश्चिम-आर.एफ 15
8	बैतूल	चिचोली	वनग्राम दरियावगंज / गवासेन / व.कक्ष क. 22 बी	दरियावगंज	153.880	उत्तर- आर.एफ 23 दक्षिण- आर.एफ 12 पूर्व- आर.एफ 25 पश्चिम-आर.एफ 22
9	बैतूल	चिचोली	वनग्राम बरखेड़ा / गवासेन / व.कक्ष क. 22 बी	बरखेड़ा	168.775	उत्तर- आर.एफ 61 दक्षिण- आर.एफ 71, 38 पूर्व- आर.एफ 65, 68 पश्चिम-आर.एफ 29, 35
10	बैतूल	चिचोली	वनग्राम बालाडोंगरी / गवासेन / व.कक्ष क. 35, 37, 72 बी	बालाडोंगरी	168.775	उत्तर- आर.एफ 66 दक्षिण- आर.एफ 71 पूर्व- आर.एफ 68 पश्चिम-आर.एफ 35
11	बैतूल	चिचोली	वनग्राम गवासेन / गवासेन / व.कक्ष क. 8, 10 बी	गवासेन	232.541	उत्तर- आर.एफ 6, 7 दक्षिण- आर.एफ 2, 1 पूर्व- आर.एफ 9, 19 पश्चिम-आर.एफ 5
12	बैतूल	चिचोली	वनग्राम खोखराखेड़ा / गवासेन / व.कक्ष क. 4, 5, 6 बी	खोखराखेड़ा	129.231	उत्तर- आर.एफ 4 दक्षिण- आर.एफ 5 पूर्व- आर.एफ 6 पश्चिम-आर.एफ 3
13	बैतूल	चिचोली	वनग्राम देवठान / भौरा (सा.) / व.कक्ष क. आर. एफ. 89 बी	देवठान	76.110	उत्तर- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 88, 89ए दक्षिण- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 90 पूर्व- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 89 पश्चिम- व. क्ष.क. क.आर.एफ. 84
14	बैतूल	चिचोली	वनग्राम मोहनपुरा / भौरा (सा.) / व.कक्ष क. आर. एफ. 77 बी	मोहनपुरा	54.700	उत्तर- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 77 ए दक्षिण- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 77 पूर्व- बीट दक्षिण पंछी वनक्षेत्र पश्चिम- व. क्ष.क. क.आर.एफ. 79
15	बैतूल	मैसदेही	वनग्राम जुनापानी / 53 सावलमैदा / व.कक्ष क. आर. एफ. 702 बी	जुनापानी	518.533	उत्तर-ग्राम घोघरी, चिखली, सावलमैदा राजस्व क्षेत्र दक्षिण-व.क्ष.क.क.आर.एफ. 708, 710, 702 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 698, 702 पश्चिम- व.क्ष.क. क.आर.एफ. 704, 707
16	बैतूल	मैसदेही	वनग्राम मालेगांव / 53 सावलमैदा / व.कक्ष क.	मालेगांव	279.328	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 707, 708

			अर. एफ.708बी			दक्षिण-ग्राम कोथलकुंड राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 708, 709 पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 706
17	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम जनौना /54 धाबा/व.कक्ष क. आर. एफ.731बी	जनौना	325.025	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 707, 708 दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ.732,ग्राम खोमई राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 730
18	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम मालनी /51 पाटोली/व.कक्ष क. आर. एफ.743 बी	मालनी	106.024	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 752,754 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 पश्चिम-व. क्षे.क.क.आर.एफ.748,749,751
19	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम साकली /52 काकड़पानी/व.कक्ष क. आर. एफ.721 बी	साकली	157.304	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 722 ग्राम पीपलबरा राजस्व क्षेत्र पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 पश्चिम-व.क्षे. क.क.आर.एफ.726
20	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम बुरहानपुर /51-माटोली/व.कक्ष क. आर. एफ.761 बी	बुरहानपुर	80.420	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761,762 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761 महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 760,772 पश्चिम-व.क्षे.क.क.आर.एफ.762 महाराष्ट्र राज्य सीमा
21	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम मोडियाकुंड /50,घोगाल/व.कक्ष क. आर. एफ.789	मोडियाकुंड	207.315	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 786,787 दक्षिण- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1015 ग्राम जामुखेड़ा राजस्व क्षेत्र पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 780,781 पश्चिम-व.क्षे.क.क.आर.एफ.788,790
22	बैतूल	भैसदेही	वनग्राम घोघाल /50 घोगाल/व.कक्ष क. आर. एफ.784	घोघाल	159.347	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 784 महाराष्ट्र राज्य सीमा दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 781,782 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 782,783 पश्चिम-व.क्षे.क.क.आर.एफ.788,790
23	बैतूल	आठनेर	वनग्राम बागवानी /58 सातकुंड/व.कक्ष क. आर. एफ.669	बागवानी	296.470	उत्तर- वनग्राम आमढाना व.क्षे.क.क.आर. एफ. 560 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 559,670 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 561 पश्चिम-ग्राम गारगुड,काबला राजस्व क्षेत्र
24	बैतूल	आठनेर	वनग्राम ठेसका /58 सातकुंड/व.कक्ष क. आर. एफ.566	ठेसका	125.644	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 568 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 565 पूर्व- ग्राम पानबेहरा राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 567
25	बैतूल	आठनेर	वनग्राम पलासपानी /55 पाटीदा/व.कक्ष क. आर. एफ.649,	पलासपानी	78.057	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557,650 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649, 650 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557, 651
26	बैतूल	आठनेर	वनग्राम छिंदवाड़ /58 सातकुंड/व.कक्ष क. आर. एफ.558 बी	छिंदवाड़	113.745	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 651 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 562, 565
27	बैतूल	आठनेर	वनग्राम मातका /53 सांवलमैडा/व.कक्ष क. आर. एफ.697	मातका	368.852	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 692,696 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 696 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 710,692
28	बैतूल	आठनेर	वनग्राम धायवानी /53 सांवलमैडा/व.कक्ष क. आर. एफ.700	धायवानी	261.796	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 791 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701
29	बैतूल	आठनेर	वनग्राम आमढाना	आमढाना	227.010	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 564

			/ 58 सातकुंड / व.कक्ष क. आर. एक 560			दक्षिण-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 560 एव राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701
30	बैतूल	आठनेर	वनग्राम पाट / 56 पाटीदा / व.कक्ष क. आर. एक.633 बी	पाट	95.156	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633
31	बैतूल	आठनेर	वनग्राम बैरमढाना / 58 सातकुंड / व.कक्ष क. आर. एक.668 बी	बैरमढाना	216.924	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 559,561 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 660,661 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 653,654 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 667,670
32	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम बेहडा / मोहदा / व.कक्ष क. आर. एक.1337, 1339	बेहडा	238.792	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1330 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1340 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1334, 1335 पश्चिम- गंगुल नदी की सीमा
33	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम पालंगा / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1245, 1247	पालंगा	84.735	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1217 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1214 पश्चिम- ताप्ती नदी की सीमा
34	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम लापा / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1251	लापा	102.030	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1252 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1251 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1148 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254
35	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम चुनामूरु / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1261	चुनामूरु	121.193	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1258 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1262 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1243 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1260
36	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम टाकझिरी / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1206, 1208, 1213, 1214	टाकझिरी	310.876	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1210, 1259 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.क. आर.एफ. 1200 पूर्व- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1205 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1215
37	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम चिखल्दा / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1271	चिखल्दा	117.609	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1292 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1270, 1259 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1257 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1272
38	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम तावडी / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1258	तावडी	109.451	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1255, 1256 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1259 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1271
39	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम आमामठार / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1134	आमामठार	183.048	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1249 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1133 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1144 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1277
40	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम हरा / तावडी / व.कक्ष क. आर. एक.1282	हरा	258.99	उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1472 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1283 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1281, 1284 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1282
41	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम डडारी / चिचोली / व.कक्ष क. आर. एक.1140	डडारी	272.407	उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1141 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 पूर्व- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1439 पश्चिम- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1431
42	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम बुचाखेडा / चिचोली / व.कक्ष क. आर. एक.1138	बुचाखेडा	154.736	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 दक्षिण- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1440, 1441 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1138 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1137

43	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम घुटिया /चिचोली / व.कक्ष क. आर. एफ.1128	घुटिया	133.012	उत्तर- व.क्ष.क.क.पी.एफ. 1424 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1127 पूर्व- व.क्ष.क.क.पी.एफ. 1423 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1149
44	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम निशाना /चिचोली / व.कक्ष क. आर. एफ.1156	निशाना	140.071	उत्तर- व.क्ष.क.क.पी.एफ. 1450 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1158, 1159 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1157 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1154, 1155
45	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम आमढाना /चिचोली / व.कक्ष क. आर. एफ.1164	आमढाना	195.123	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1163 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1165 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1168, 1167
46	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम इमलीडोह /चिचोली / व.कक्ष क. आर. एफ.1160	इमलीडोह	190.729	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1159 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1175 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1161 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 1177, 1178
47	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम सीतापुर /36 कुंनखेडी / व.कक्ष क. आर. एफ.817 बी	सीतापुर	119.732	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 818 दक्षिण- ग्राम पलस्या राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 817 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 819
48	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम करंजीडोह /40 कुण्ड / व.कक्ष क. आर. एफ.841 बी	करंजीडोह	148.843	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 842 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 842 ग्राम चिखली राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम ईटिया बिटिया राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 841
49	बैतूल	भीमपुर	वनग्राम कोल्हडाना /38 कोल्हडाना / 853बी	कोल्हडाना	45.351	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 853 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ.853 सास बहु नदी पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 851,853 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 853
50	बैतूल	आमला	वनग्राम बिच्छूखान /15 बाकुड पार्ट /518 बी	बिच्छूखान	190.350	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 514,518 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 518 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 518 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 514, 516
51	बैतूल	आमला	वनग्राम लादी /15 बाकुड पार्ट /518 बी	लादी	285.557	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 518 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 514,518 पूर्व-व.क्ष.क.क.आर.एफ.518 एवं ग्राम मंगारा क्षेत्र पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 512, 513 एवं ग्राम जुआझर क्षेत्र
52	बैतूल	आमला	वनग्राम कुण्डारा /16 बोदुड पार्ट /529 बी	कुण्डारा	161.060	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 529 दक्षिण- ग्राम कोठियाढाना राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 529, 530 पश्चिम- ग्राम कोठिया राजस्व क्षेत्र
53	बैतूल	आमला	वनग्राम भालदेही /16 बोदुड पार्ट /529 बी	भालदेही	75.658	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 528 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 528 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 539 पश्चिम- ग्राम बिसीघाट राजस्व क्षेत्र
54	बैतूल	आमला	वनग्राम ठुठामा /16 बोदुड पार्ट /535 बी, 538 बी	ठुठामा	76.493	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 535 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 535 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 535 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 535, 536
55	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम सीवनपानी /57 पिपरिया /574 बी.	सीवनपानी	26.475	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 547 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 547 पूर्व- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 547 पश्चिम- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 548, 549
56	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम तेलिया /57 पिपरिया /551 बी	तेलिया	84.633	उत्तर- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 947 दक्षिण- व.क्ष.क.क.आर.एफ. 548,553,556



						पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548, 549, 550 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 552, 553
57	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम पिपरिया /57 पिपरिया/556 बी	पिपरिया	78.832	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 582, 583 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 555
58	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम जोगीखेडा /57 पिपरिया/576 बी	जोगीखेडा	30.672	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 574,575 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- महाराष्ट्र राज्य सीमा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 576
59	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम धामनधस /57 पिपरिया/578 बी	धामनधस	47.563	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 578 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 एवं ग्राम कुमदा राजस्व क्षेत्र
60	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम कालापखान /55 कालापखान/606 बी	कालापखान	41.647	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 610,611,613 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 606,512 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 607 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 613,616
61	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम कुण्ड /55 कालापखान/601 बी	कुण्ड	53.682	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600,602 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 963 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 601
62	बैतूल	प्रभातपट्टन	वनग्राम झुनकारी /55 कालापखान/592 बी	झुनकारी	114.530	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 591,595 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 590 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 593,594
63	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम बुढीमाई /गवासेन/वन कक्ष 70 बी, 57 बी, 56 बी	बुढीमाई	110.465	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 69 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 59 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1382 पश्चिम- भाजी नदी की सीमा
64	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम पाट /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 94 बी	पाट	272.730	उत्तर- राजस्व ग्राम कनारी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 101 पूर्व- राजस्व ग्राम धुत्तापुरा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 96
65	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम बरेठा /बैतूल (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 245 बी,249 बी	बरेठा	417.830	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 245ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 246, 245ए पूर्व- राजस्व ग्राम देशवाडी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 249बी
66	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम हांडीपानी /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 128 बी, 129 बी	हांडीपानी	598.710	उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 131
67	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम धार /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 155 बी, 157 बी	धार	243.400	उत्तर- सुखतवा नर्मदापुरम जिला दक्षिण- पोलापत्थर पूर्व- बोडखेडा, दांडीवाडा पश्चिम- झिरना नयापुरा, पिस्थपन गांव
68	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम कुप्पा /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 130बी, 181बी	कुप्पा	355.320	उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 130ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 181ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 130 ए पश्चिम- राजस्व ग्राम टेटर
69	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम बोड /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 139बी, 152बी	बोड	212.410	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 113ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119 ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 115 ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119ए
70	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम सांवरिदा /भौरा (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 119 बी,113 बी,115 बी	सांवरिदा	99.970	उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129 ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 131

71	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम मेढारखेडा / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 218 बी, 213 बी, 214 बी, 215 बी	मेढारखेडा	267.020	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 215बी, 214 बी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 बी पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 213 बी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 बी, 219बी
72	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम झूडर / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 218 बी	झूडर	246.940	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 217 दक्षिण- काजली ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 पश्चिम- सीताडोंगरी ग्राम
73	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम झिल्ला / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 520 बी	झिल्ला	128.890	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 195ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 202, 203
74	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम सेल्दा / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 172 बी, 173 बी	सेल्दा	473.510	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 168 दक्षिण- बीजादेही ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 172 पश्चिम- टागनामाल ग्राम
75	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम . कालापानी / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 226 बी	कालापानी	372.940	उत्तर- माघना नदी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 227, 228 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 226ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 229
76	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम कोठा / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 175 बी	कोठा	220.480	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए बड़ा नाला एवं भौरा परिक्षेत्र दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए, 176 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए पश्चिम- बरजोरपुर बीट
77	बैतूल	शाहपुर	वनग्राम मूढा / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 175 बी	मूढा	620.000	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 182, 180' दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 185, 184, 191, एवं सूखी नदी पूर्व- जामनगरी ग्राम पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 190, 163
78	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम बाकुड कोल / रानीपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552	बाकुड कोल	71.610	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड
78	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम बाकुड कोल / रानीपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552	बाकुड कोल	71.610	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड
79	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम जुआझर / रानीपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 520 बी	जुआझर	112.730	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 525, 526 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 521 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 520 पश्चिम- राजस्व ग्राम गाताखेडा
80	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम केवलाझिरी / शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 232बी	केवलाझिरी	440.700	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 232, 249ए दक्षिण- खरी / डोरी ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 248 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 233
81	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम ईमलीखेडा / सारनी (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 309 बी	ईमलीखेडा	93.350	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 302 (वन भूमि रामपुर भतौडी परियोजना का क्षेत्र)
82	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम हीरापुर / सारनी (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 290 बी	हीरापुर	158.420	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 289 दक्षिण- आर. ई. एस. तालाब या डेम राजस्व क्षेत्र में पूर्व- ग्राम हीरापुर 2 का राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 290 ए पी. एफ 1626

83	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम चोपना / सारनी (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 298 बी	चोपना	128.700	उत्तर- तालाव राजस्व ग्राम क्षेत्र ग्राम झोली 1 दक्षिण- ग्राम चोपना 3 राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 298 पश्चिम- ग्राम चोपना 1 राजस्व क्षेत्र
84	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम कोहल्या / सारनी (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 287 बी, 288बी	कोहल्या	343.300	उत्तर- कोहल्या केम्प राजस्व क्षेत्र दक्षिण- भडंगा नदी चोपना राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम झोली राजस्व क्षेत्र पश्चिम- भडंगा नदी ग्राम आमडोह एवं ग्राम धरमपुर राजस्व क्षेत्र
85	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम बीजादेही / 15 बाकुड / वन कक्ष आर. एफ. 515 बी	बीजादेही	93.956	उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. .515 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 516 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 515 पश्चिम- ग्राम रोझड़ा राजस्व क्षेत्र
86	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम अर्जुनगौदी / बैतूल (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 251 बी, 255 बी	अर्जुनगौदी	89.940	उत्तर- व.क्षे.क.क.पी. . 431 देशवाडी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252 घुघी पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 255ए
87	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम बांसबोडी / बैतूल (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 257 बी	बांसबोडी	284.180	उत्तर- राजस्व ग्राम चोपना दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 258 पूर्व- राजस्व ग्राम दुधावानी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 261, 256
88	बैतूल	घाड़ाडोगरी	वनग्राम घोघरा / रामपुर / कक्ष क.512 बी.518बी, 519बी	घोघरा	269.120	उत्तर- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 509 दक्षिण- आरक्षित वनकक्ष क.520 पूर्व- आरक्षित वनकक्ष क.518 पश्चिम- आरक्षित वनकक्ष क.512
89	बैतूल	घोड़ाडोगरी	वनग्राम भतौडी / रामपुर / कक्ष क. 501 बी, 507बी, 508बी	भतौडी	668.500	उत्तर- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 509 दक्षिण- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन- कक्ष 507 पूर्व- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 510 पश्चिम- आरक्षित वनकक्ष क.507
90	बैतूल	घोड़ाडोगरी	वनग्राम पूंजी / पूंजी / कक्ष क.482 बी	पूंजी	250.500	उत्तर- आरक्षित वनकक्ष क.481 व 482 दक्षिण- ग्राम कैली एवं सातलदेही की कृषि भूमि पूर्व- ग्राम नारायणपुर की कृषि भूमि पश्चिम- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 435
91	बैतूल	घोड़ाडोगरी	वनग्राम रामपुर / रामपुर / कक्ष क.504	रामपुर	587.250	उत्तर- आरक्षित वनकक्ष क.528 दक्षिण- आरक्षित वनकक्ष क.477 पूर्व- सोनभद्रा नदी पश्चिम- आरक्षित वनकक्ष क.537

अमन सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील-कुक्षी,  
जिला, धार मध्यप्रदेश**

पत्र क्र.-790-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23

कुक्षी, दिनांक 14 मार्च 2023

**प्ररूप- "घ"  
{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3100/री-1/2022 कुक्षी, दिनांक 02.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक- 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु **ग्राम-जेतगढ़, प.ह.न.-12, रा.नि.मं.-01, बाग, तहसील-कुक्षी, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुक्षी	ग्राम—जेतगढ़, प.ह.न.—12	258/1/265	0.050
			254	0.040
कुल योग			02	0.090

पत्र क्र.-793-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-07-अ-82-2022-23

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3125/री-1/2022 कुशी, दिनांक 02.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस कमांक- 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु **ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13, रा.नि.मं.-01, बाग, तहसील-कुशी, जिला-धार** में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुशी	ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,	348/2/2	0.022
			348/2/1/3	0.022
			355	0.040
			354/3	0.024
			357/2	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुशी	ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,	357/3	0.031
			357/4	0.002
			357/1	0.028
			271/1/7	0.006
			271/1/8	0.007
			271/3	0.022
			271/2	0.030
			270/1	0.008
			268	0.016
			267	0.014
			277/5/3	0.025
			277/5/2	0.019
			277/3	0.024
			277/2	0.024
			281	0.025
			255	0.102
			252	0.014
			230	0.055
			227/2	0.011
			226/3/2	0.010
			226/3/1	0.045
			226/4	0.035
			146/7	0.006
			146/8	0.018
			146/5	0.018
			204/2	0.035
			206	0.006
			204/4/क	0.025
			203/2	0.011
			204/1/1	0.028
			204/1/2	0.010
			203/3	0.011
			456	0.059
			457	0.021
			462/5	0.069
			462/2	0.006
			462/4	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	कुशी	ग्राम—गेटा, प.ह.न.—13,	462/1	0.002
			461	0.006
			549	0.005
			540	0.095
			551	0.048
			522/3	0.015
			522/2	0.006
			522/1	0.018
			519	0.032
			521	0.018
			517	0.020
			503/1	0.026
			496/1	0.042
			496/2/1	0.074
			495	0.016
			493/570	0.018
कुल योग			59	1.456

पत्र क्र.-968-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2022-23

सरदारपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2023

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-02 एवं डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90,	582/1/1	0.022
			582/2/1	0.022
			585/1	0.042
			587	0.045
			584/3	0.023



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90,	584/1	0.008
			584/2	0.036
			578/3	0.055
			577/1/3	0.004
			577/1/2	0.037
			576	0.023
			550	0.018
			489/3	0.056
			487	0.073
			494	0.006
			495/2	0.013
			495/1	0.036
			496	0.018
			525/2	0.014
			405	0.004
			404	0.061
			362/2	0.014
			30/1	0.028
			362/1	0.038
			363/1/2	0.014
			364/2/2	0.003
			364/3	0.017
			344/3/2	0.032
			344/3/1	0.009
			346/2	0.014
			347/2	0.095
			108	0.006
			107	0.070
			113/1	0.076
			103/2	0.020
			104/2	0.033
			102/1	0.066
			93	0.054
			10	0.010
			7	0.029
			8	0.085
			11/3	0.010
			11/2	0.061
			11/1	0.030

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90	18/2/1	0.055
			24/2	0.016
			23	0.032
			22	0.008
			25/3	0.057
			25/2/2	0.018
			27/2	0.026
			27/3	0.064
			29	0.060
			30/2/1	0.011
			30/2/2	0.013
			30/2/3	0.025
			31/2	0.078
			40	0.093
			41/3	0.008
			41/2	0.033
			41/1	0.022
			324/1	0.020
कुल योग			62	2.069

पत्र क्र.-973-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0039-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 व डी.एम.-3 पाईप नहर एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर एल.एम.-04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91,	295/2	0.066
			297	0.036
			298	0.022
			242/2	0.006
			11/3	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91	10	0.052
			7/2	0.054
			179	0.011
			9	0.031
			8/1/1	0.044
			7/1/1/2	0.002
			7/1/2	0.029
			21/1/1	0.037
			21/1/2	0.022
			22/1	0.020
			291/2	0.009
			281	0.006
			284	0.118
			283	0.004
			288	0.021
			289	0.062
			262	0.009
			259/2	0.014
			259/1	0.022
			255/1	0.017
			256	0.003
			131	0.004
			172/2	0.040
			190	0.056
			186	0.081
			187/1	0.004
			187/2	0.023
			184/1	0.003
			183/2	0.022
			182/1	0.007
			128	0.026
			133	0.085
			130	0.029
			126/1	0.032
			126/2/2/1	0.009
			134/2	0.006
			134/1	0.049
			123/2	0.071
कुल योग			43	1.286

पत्र क्र.-978-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, 08 व एल.एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अमझेरा, प.ह.नं.-93, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-अमझेरा, प.ह.नं.-93	8	0.012
			2/2	0.035
			2/1	0.007
			5/1	0.031
			4/1	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-अमझोरा, प.ह.नं.-93,	1085	0.041
			3/2	0.050
			3/3	0.024
			83/1	0.071
			94	0.047
			96	0.089
			231/2	0.004
			230	0.102
			247	0.050
			246	0.042
			245	0.039
			236/2	0.067
			237/1	0.050
			237/2	0.018
			240/1	0.021
			239	0.004
			238/1	0.036
			238/2	0.046
			240/2	0.028
			240/3	0.034
			34/1/4	0.042
			34/2/1	0.066
			34/2/2	0.061
			38/2	0.017
			38/1	0.053
			37/1	0.033
			37/2	0.034
			49/2	0.016
			45/1	0.020
			45/2	0.036
			45/3	0.046
			46	0.017
			48	0.020
			47	0.066
			975/2	0.012
			976/2/2	0.006
			976/2/3/1	0.015
			976/2/3/2/1	0.011
			976/2/3/2/2	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—अमझेरा, प.ह.नं.—93	976/2/1	0.024
			972/1	0.010
			971	0.011
			969	0.022
			970	0.038
			1056/1/1	0.006
			1056/2	0.026
			1056/3/1	0.020
			1056/3/2	0.015
			1058/1	0.034
			1084	0.044
			1083	0.011
			1082/2	0.006
			232/1	0.075
			232/2	0.026
			236/1	0.017
			235/2	0.008
			234/2	0.006
			419	0.033
			434/1	0.013
			437	0.045
			441/1	0.045
			442/1	0.035
			501/2/2	0.037
			500/1	0.070
			500/2	0.064
			499/3	0.091
			497	0.018
			492/1/1/1	0.063
			492/1/1/2	0.015
			496/1/1/1	0.022
			496/3/1	0.018
			496/3/2	0.016
			496/3/3	0.012
			463/2/2/1/3	0.017
कुल योग			79	/ 2.595

पत्र क्र.-983-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0018-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, आर.एम.-05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82, रा.नि.मं.-03, अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,	203	0.006
			204/2	0.044
			198	0.020
			186	0.002
			184	0.066



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,	179	0.049
			180/4	0.006
			180/3	0.008
			180/2	0.012
			180/1/1	0.011
			173/2	0.019
			173/1/3	0.006
			173/1/2	0.006
			173/1/1	0.005
			171/5	0.032
			171/4	0.009
			171/3	0.008
			171/2	0.008
			171/1	0.008
			170/1	0.066
			163/5/3	0.052
			163/5/1	0.001
			163/1	0.071
			163/2	0.068
			163/3	0.068
			98	0.067
			97	0.012
			93/4	0.016
			85/3	0.008
			95/3	0.014
			94	0.020
			85/5	0.010
			85/4	0.014
			46	0.024
			44/2	0.010
			11/2	0.001
			11/1	0.004
			13	0.006
			282/5	0.022
			282/10	0.006
			282/8	0.018
			374/1/1	0.015
			374/1/2	0.045
			374/2	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82	382	0.048
			380/2/2	0.012
			380/1	0.062
			405/3	0.039
			405/2	0.034
			405/1	0.012
			404	0.020
			406/1	0.004
			420/1	0.006
			424/2	0.042
			425	0.043
			421/2	0.010
			432	0.071
			434	0.036
			435/1/1	0.010
कुल योग			58	/ 1.373

पत्र क्र.-988-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0035-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-04 व आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मोरगांव, प.ह.नं.-85, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मोरगांव, प.ह.नं.-85,	773/2	0.049
			775	0.041
			769	0.015
			798	0.039
			776/2	0.023

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मोरगांव, प.ह.नं.-85	776/1	0.002
			814/1/1	0.007
			777/2	0.011
			777/1	0.020
			767/1	0.047
			766/2	0.048
			766/1	0.039
			737	0.045
			738	0.044
			735	0.018
			715	0.086
			733/1/1/5	0.041
			733/2	0.075
			733/1/1/6	0.013
			733/1/1/7	0.010
			733/1/1/8	0.026
			733/1/1/10	0.017
			733/1/1/11	0.014
			475/1	0.037
			472	0.008
			469/2	0.101
			460	0.043
			811	0.069
			459/1/2	0.020
			398/2	0.034
			402	0.026
			390/1	0.031
			404/1/1	0.020
			404/1/2	0.015
			387/2	0.011
			386/2	0.020
			412	0.055
			410	0.005
			411	0.003
			415	0.043
			418	0.056
			419	0.036
			420	0.033

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-मोरगांव, प.ह.नं.-85	421/1/2	0.031
			431	0.006
			421/1/1	0.003
			422	0.014
			428/1	0.054
			428/2	0.018
			427/1	0.011
			427/2	0.011
			425	0.011
			758	0.014
			757	0.019
			756/1/2	0.008
			756/1/1	0.048
			719	0.034
			711	0.028
			709	0.021
			710	0.008
			701	0.041
			699/2	0.013
			700	0.006
			664	0.048
			650/2	0.005
			651/1	0.014
			651/2	0.030
			647/4	0.061
			647/2	0.002
			647/1	0.018
			643	0.075
			644	0.018
			736	0.024
			733/1/1/1	0.051
			733/1/1/2	0.038
			733/1/1/3	0.017
			796	0.065
			884/1	0.060
			798/906	0.030
			873	0.021
			883	0.006
धार	सरदारपुर	ग्राम-मोरगांव, प.ह.नं.-85	870	0.058
			871	0.054
			867/2/2	0.067
			867/2/1/2	0.019
			867/2/1/1	0.041
			867/1	0.033
			854	0.051
कुल योग			89	2.712

पत्र क्र.-993-भू-अर्जन-री-1-2023-रा.प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार, को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-इडरिया, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03, अमझोरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम-इडरिया, प.ह.नं.-95,	178/2	0.163
			82	0.068
			81	0.063
			87	0.008
			76/2	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	सरदारपुर	ग्राम—इडरिया, प.ह.नं.—95,	47	0.052
			95	0.015
			93/3	0.002
			46/6	0.005
			107	0.005
			93/2	0.016
			93/1	0.017
			46/8	0.012
			94	0.026
			46/9	0.015
			96/3	0.040
			100/1/1	0.014
			99	0.057
			40	0.013
			38/3/2	0.020
			38/3/1	0.047
			34/2	0.045
			34/1	0.050
			182/2	0.035
			185	0.015
			186/1	0.027
			150	0.089
			169	0.040
			151	0.003
			167	0.006
			155/1	0.020
			155/2	0.039
			143	0.004
			137/2	0.039
			137/1	0.024
			135/1	0.038
			135/3	0.030
			133	0.075
			132	0.065
			129/2	0.011
			129/1	0.095
कुल योग			41	1.421

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-6-अ-82-2022-23

रायसेन, दिनांक 17 अप्रैल 2023

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खिरिया पारासर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध  
भूमि का विवरण

- 1 जिला :- रायसेन  
2 तहसील :- बेगमगंज  
3 ग्राम :- खिरिया पारासर  
4 पटवारी हल्का नम्बर :- 01  
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल है 0 में 0.021 है 0

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नम्बर	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1		2	3	4
1	34/1 रास्ता	शासकीय यात्री प्रतिसालय	पक्का प्रतिसालय	14.41
2	37 शासकीय	शासकीय चबूतरा	पक्का चबूतरा	1.00
3	54/3 रास्ता	मंदिर	पक्का मंदिर	166.28
4	57/36 कनिस्तान	शासकीय यात्री प्रतिसालय	पक्का प्रतिसालय	29.37
5	57/36 कनिस्तान	शासकीय शौचालय	पक्का शौचालय	5.40
योग :-				216.46 (वर्गमी०)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।



प्र.क्र.—3—अ—82—2022—23

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मंडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम सुमेर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मंडिया बाँध

भूमि का विवरण

- 1 जिला :- रायसेन  
 2 तहसील :- बेगमगंज  
 3 ग्राम :- सुमेर  
 4 पटवारी, हल्का नम्बर :- 8  
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हे० में :- 0.021 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नम्बर	भूमि स्वामी का नाम	संकाय का प्रकार	निर्मित मकान का मूलतः क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
1	85/1 रास्ता	शासकीय शौचालय	पक्का शौचालय	46.15
2	85/1 रास्ता	राजू पिता रतन	कच्चा मकान छत टीन सेट + खपरले	19.13
3	408/341 शासकीय	फिल्टर प्लान्ट	पक्का प्लान्ट	47.07
4	408/341 शासकीय	शमशान घाट	पक्का शमशान छत टीन सेट	92.56
योग				204.91 (वर्गमी०)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 शहगतद, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.-2-अ-82-2022-23

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

परियोजना का नाम :-

बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध

भूमि का विवरण

- 1 जिला :- रायसेन  
 2 तहसील :- बेगमगंज  
 3 ग्राम :- खजुरिया बरामद गढ़ी  
 4 पटवारी हल्का नम्बर :- 01  
 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल है 0.023 है 0

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नं०	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का मूलतः का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1		2	3	4
1	32 नाला	शासकीय	पक्का शमशान घाट	46.08
2	62 रास्ता	शासकीय	पक्का चबूतरा	11.6
3	160/1 चारागाह	मंदिर दुर्गा जी का	पक्का मंदिर	47.25
4	34/1 शासकीय	पंप हाऊस	पक्का पंप हाऊस	
5	34/1 शासकीय	श्री बाई पति: हुकमसिंह	कच्चा मकान	129.37
योग:-				234.31 (वर्गमी०)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र.—9—अ—82—2022—23

अंतर्गत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम बेलई के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

परियोजना का नाम :- बीना संयुक्त सिचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध

भूमि का विवरण

1 जिला :- रायसेन

2 तहसील :- बेगमगंज

3 ग्राम :- बेलई

4 पटवारी हल्का नम्बर :- 01

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हे० में :- 0.043 हे०

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	खसरा नम्बर	भूमि स्वामी का नाम	मकान का प्रकार	निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्गमी०) में
1	2	3	4	5
1	235/116 खलियान (पडती 5 बार्स से ज्यादा)	हरिसिंह पिता रामचरण	कच्चा मकान	91.85
2	235/116 खलियान (पडती 5 बार्स से ज्यादा)	राजू पिता हरिसिंह लोधी	पक्का मकान	58.61
3	109 आवादी	कमलेश पिता मुल्लू	कच्चा मकान	5.46
4	109 आवादी	हरिसिंह पिता दुर्जनसिंह	पक्का एवं कच्चा मकान	121.87
5	92 आवादी	कमोद पिता मोहन	कच्चा मकान	15.08
6	92 आवादी	नीलेश पिता कमोद	कच्चा मकान	69.20
7	92 आवादी	मनोज पिता कमोद	कच्चा मकान	10.11
8	68 शासकीय	हनुमान मंदिर	पक्का मंदिर	58.60
		योग:-		430.78 (वर्गमी०)
				0.043 (हे०)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग**

क्र.-2986-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

**अनुसूची**

- 1- ग्राम का नाम :-कुकलाह ब.नं.-27 प.ह.नं.-36  
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी  
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-2.40 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति प्रति	संख्या	प्रकार	स्थिति का परिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	14/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	प्रमोद, प्रदीप, राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी शशिबाई प्रीतिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	खुबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	प्रमोद, प्रदीप बौरा पिता मेरसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	पंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर	-	-	-	-
2	24/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	खुबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खुबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	खुबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-
3	24/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	खुबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि	-	-	-	-

4	24/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	कुंजभवन बगैरा पुत्र कुंजभवन परतापसिंह की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
5	14/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	भगवानदास पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि	नान्हो बगैरा पिता पुनू की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि	प्रमोद प्रदीप बगैरा पिता मेरसिंह की भूमि				
6	14/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम जाति अग्रवाल पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुंजभवन बगैरा पुत्र पुत्री परतापसिंह की भूमि	नान्हो बगैरा पिता पुनू की भूमि	बंजारी पुत्र भिगनू मेहरा की भूमि	भगवानदास पुत्र घासीराम की भूमि				
7	23	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	कुंजभवन रामलखन, जगदीश पुत्रपरतापसिंह जानकीबाई, पुत्री परतापसिंह, रामोबाई बेवा परतापसिंह जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र भिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	माहू पुत्र प्रेमी जाति बढई की भूमि				
8	16/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	बंजारी पुत्र भिगनू जाति मेहरा पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र भिगनू मेहरा की भूमि	मालती पति भिगनू बगैरा की भूमि	सुशीलकुमार पुत्र घासीराम की भूमि				
9	16/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अर्जुनसिंह पुत्र कमलसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	बंजारी पुत्र भिगनू मेहरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	बंजारी पुत्र भिगनू मेहरा की भूमि				
10	53	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अनुज नाबालिग पुत्र रामकुमार संरक्षक माँ सुशील पति रामकुमार जाति बागरी पता बडी पुलिस लाइन सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	दादूराम, दयाराम बगैरा पिता चमरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	घनश्याम पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा				

11	48/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मूरतसिंह पुत्र तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	संतलाल पिता तेजलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	गप्पू पुत्र भगवत बागरी बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन नाला	-	-	-	-
12	47	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	गप्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुघरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध पुत्र धुन्नी जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, फुल्लो पुत्री गोधन जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	लीलम पिता तेजलाल की भूमि	-	-	-	-
13	46	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि	गप्पू पुत्र भगवत बागरी की भूमि	-	-	-	-
14	44/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	राजकुमार पिता प्रहलादसिंह की भूमि	-	-	-	-
15	43/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह की भूमि	-	-	-	-
16	43/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र जगन्नाथ की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	-	-	-	-
17	283/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	मायाबाई पत्नी देवीसिंग की भूमि	-	-	-	-

18	283/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बगैरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
19	285/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन, पिता काशीराम बगैरा की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
20	285/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र हनवंतसिंह, रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन नाला	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
21	121/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-
22	121/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-

23	122/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	कीर्ति पत्नी अतुल जाति गौर पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	काशीराम पुत्र चैतराम की भूमि	-	-	-	-
24	122/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्दोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्दोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	अर्जुनसिंह पुत्र धानसिंह की भूमि	कीर्ति पत्नी अतुल की भूमि	रमनिया पिता बदकू गोंड की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	-	-	-	-
25	123/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.25	अर्जुनसिंह पुत्र थानसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	काशीराम बगैरा पुत्र चैतराम की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि	-	-	-	-
26	136/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	अरविंद पिता जगतसिंह की भूमि	अयजनसिंह पिता काशीराम बगैरा की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	-	-	-	-
27	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सिलोचनाबाई बेवा गिरवरसिंह जाति बागरी रवीन्द्र, अरविंद पुत्र गिरवरसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	शिवसिंह पिता शोभायाम की भूमि	-	-	-	-
28	131	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	सिलोचनाबाई पति गिरवरसिंह की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता कच्चा	श्यामा पत्नी भारामल की भूमि	-	-	-	-



29	137/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की	सुषमा पुत्री जगतसिंह की भूमि	नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी की भूमि	-	-	-	-
30	137/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	जगतसिंह पिता रामदयाल की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की	अभिलाषा पिता भगतसिंह की भूमि	रजनी पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	138/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी	भगतसिंह पिता रामदयालसिंह की भूमि	कैलाश पिता झलकनसिंह की भूमि	शिवनंदन पिता ददूआ की भूमि	सुषमा पुत्री जगतसिंह बागरी की भूमि	-	-	-	-
31	योग			2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

क्र.-06-अ-82-2021-22-बोरगौव-04285

बैतूल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची - 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	प्रभात पट्टन	बोरगौव	खसरा नं. 124/9 पर स्थित एक मकान	पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु।

**अनुसूची-2**

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे. में
1	2	3	4	5
1	निर्मला उर्फ गौलन पति गणपति	124/9	0.068	अर्जन का रकबा- निरंक। उक्त खसरा नंबर पर स्थित 01 मकान का अर्जन प्रस्तावित है।

(2) चूँकि छिन्दी जलाशय की नहर के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(3) समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़,  
जिला-राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश**

प.क्र.-ए-200-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2023

प्रारूप "ख"

[[नियम-5 का नियम (2) देखिए]]

<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम-जोगीपुरा, ज्वालापुरा, मोतीपुराखाती, मान्यापुरा, चमारी, दिलावरी. तहसील - राजगढ़ जिला राजगढ़ (D7) से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारंगपुर एवं खिलचौपुर एवं राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।</p> <p>और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।</p> <p>अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व राजगढ़ (तहसील -राजगढ़) जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा</p>					
अनुसूची					
ग्राम -जोगीपुरा		तहसील -राजगढ़			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए
1	21/3/1/3	कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल जाती साँधिया	जोगीपुरा	0.295	0.045
2	21/3/2/2	श्रीमती कृष्ण नामदेव पति मनोज कुमार नामदेव पिता छिपा धर्मद आर्य पिता रामस्वरूप आर्य जाती छिपा	जोगीपुरा	0.759	0.045
3	16/2/3	यादवेंद्र पिता शिव नारायण जाती साँधिया	जोगीपुरा	1.012	0.015
4	16/2/4	हेमराज पिता बापूलाल जाती साँधिया	जोगीपुरा	1.011	0.015
कुल योग	4			3.077	0.120
ग्राम -ज्वालापुरा		तहसील -राजगढ़			
1	42/8	रामलाल तुलसीराम पिता गंगाराम मीरा वि.गंगाराम गुलाब ग्यारसी रामी पिता गंगाराम जाति चमार भवरीबाई, प्रेमबाई बीरम जाति चमार अमृतलाल, बापूलाल बीरम जाति चमार	ज्वालापुरा	0.304	0.019
2	42/14/2/2	रामसिंह पिता जगन्नाथ जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.317	0.008
3	42/14/2/3	गोकुल पिता जगन्नाथ जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.316	0.009
4	42/14/5/1/1	नानूराम पिता खीमा जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.406	0.008
5	42/14/5/1/2	लक्ष्मीनारायण पिता नानूराम पिता जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.406	0.008
6	41/4/1	गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.224	0.015
7	41/4/2	सोमनाथ बाई सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.224	0.015
8	30/2	विष्णुप्रासद पिता देवचंद जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.601	0.004
9	41/2/1	विराम पिता कालूराम जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.224	0.005

10	31/2/2	सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.145	0.022
11	31/3	रोडजी पिता खीमा जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.291	0.023
12	16/19/4/1	रामनाथ पिता जगन्नाथ जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.270	0.010
13	16/19/4/2	रामसिंह पिता जगन्नाथ जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.270	0.010
14	16/19/4/3	गोकुल पिता जगन्नाथ जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.270	0.010
15	16/19/5/1	गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.405	0.010
16	16/19/5/2	सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ	ज्वालापुरा	0.405	0.008
17	16/7/2	धीरपसिंह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर	ज्वालापुरा	1.316	0.031
18	16/12	धीरपसिंह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर	ज्वालापुरा	2.023	0.006
कुल योग		18		8.417	0.221
ग्राम-मोतीपुराखाती			तहसील -राजगढ़		
1	47/2	रतनलाल पिता धुलजी	मोतीपुराखाती	0.911	0.007
2	71	पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती महाजन	मोतीपुराखाती	0.293	0.018
3	70	पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती महाजन	मोतीपुराखाती	0.202	0.014
4	79/1	राम दयाल पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.485	0.011
5	79/2	बल्लभ पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.485	0.012
6	79/3	छोटलाल पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.485	0.012
7	79/4	राजराम पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.485	0.012
8	79/5	महेश पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.484	0.011
9	79/6	मोहनलाल पिता मदनलाल जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.484	0.012
10	88/1	शिवनारायण पिता प्यारजी जाती सुतार	मोतीपुराखाती	0.380	0.031
11	92	अमरसिंह पिता देवीराम जाती गुर्जर	मोतीपुराखाती	0.620	0.024
12	9/2	श्रीमती मंजू बिड़ला पति श्री बालकृष्ण बिड़ला जाती वैश्य	मोतीपुराखाती	6.070	0.090
13	2/1	मनोहरलाल पिता भवरलाल जगदीश पिता भवरलाल दिनेश पिता भवरलाल जाती खाती	मोतीपुराखाती	1.777	0.039
कुल योग		13		13.163	0.293
ग्राम-मान्यापुरा			तहसील -राजगढ़		
1	91/1/3	छोटलाल पिता देवीलाल जाती लोढ़ा	मान्यापुरा	2.000	0.016
2	91/1/7	बापूलाल पिता धुलजी जाती लोढ़ा अमरसिंह पिता रामा मदनलाल पिता देवा भवरीबाई बेवा देवा दुलसिंह पिता देवा सरदारबाई पिता देवा रंगलाल पिता देवा गीताबाई रेशमा बाई सोरमबाई पिता धुलजी रमकूबाई बेवा धुलजी रुघनाथ पिता धुलजी करणसिंह पिता धुलजी जाती लोढ़ा	मान्यापुरा	1.916	0.016
3	91/1/12	पप्पू गुलाब विष्णु पिता कालू राजेंद्र अन्नू देवराज ना बा पिता कालू सर पर माता धापूबाई बेवा कालू जाती भील	मान्यापुरा	1.859	0.016
4	91/1/19	अमरलाल नाहरसिंह शांतिबाई कैलाश बाई पिता प्रभू लक्ष्मी बाई बेवा प्रभूलाल जाती लोढ़ा	मान्यापुरा	1.694	0.017
कुल योग		4		7.469	0.065
ग्राम-चमारी			तहसील -राजगढ़		
1	193/2/1	लालसिंह पिता रतिया जाती लोढ़ा	चमारी	0.759	0.047
2	193/2/2	पूरी बाई बेवा हजरीलाल मदनलाल , राजाराम राधेश्याम पिता हजरीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.759	0.046
3	149/1	नोरंगबाई बेवा देवीसिंह रामनारायण लक्ष्मण पिता देवीसिंह	चमारी	0.417	0.015
4	149/2/1	बापूलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा	चमारी	0.200	0.016
5	149/2/2	जगदीश पिता बापूलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.218	0.015
6	148	भवरलाल पिता किशनलाल लालसिंह पिता किशनलाल नारायणसिंह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा किशनलाल जाती चमार	चमारी	0.417	0.011
7	147	बीरम पिता परसा जाती लोढ़ा	चमारी	0.316	0.013
8	138/1	लीलबाई पति प्रेमसिंह जाती लोढ़ा	चमारी	0.316	0.017

9	139/1	भरतसिंह प्रेमसिंह पिता भवरलाल देवबाई बेवा भवरलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.185	0.008
10	139/2	गंगारम पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.186	0.010
11	139/3	हीरालाल पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.186	0.008
12	25/1/6	भवरलाल पिता किशनलाल लालसिंह पिता किशनलाल नारायणसिंह पिता किशनलाल जाती चमार	चमारी	1.866	0.015
13	25/1/9	बीरम पिता परसा जाती लोढ़ा	चमारी	1.556	0.012
14	25/1/11	रामलाल पिता घिसा जाती चमार	चमारी	2.000	0.012
15	25/1/15	अमरसिंह गोवर्धन पिता मदनलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.191	0.012
16	25/1/17	मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार	चमारी	1.651	0.013
17	25/1/18	रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोढ़ा	चमारी	0.493	0.015
18	25/9	परीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति परीलाल	चमारी	1.000	0.012
19	25/12	भवरलाल पिता किशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल	चमारी	1.380	0.012
20	25/13	लालसिंह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिंह	चमारी	1.380	0.012
21	25/14	नारायणसिंह पिता किशनलाल शांतिबाई पत्नी नारायण	चमारी	1.380	0.012
22	25/20	नाथु पिता किशना जाती लोढ़ा	चमारी	1.682	0.012
23	25/21	गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोढ़ा	चमारी	0.417	0.012
24	25/23	रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोढ़ा	चमारी	2.984	0.012
25	25/1/5	भवरलाल पिता किशनलाल लालसिंह पिता किशनलाल नारायणसिंह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा किशनलाल जाती चमार	चमारी	1.866	0.002
26	25/1/6	भवरलाल पिता किशनलाल लालसिंह पिता किशनलाल नारायणसिंह पिता किशनलाल जाती चमार	चमारी	1.866	0.003
27	25/1/7	अमरसिंह पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.720	0.002
28	25/1/9	बिरम पिता परसा जाती लोढ़ा	चमारी	1.556	0.002
29	25/1/11	रामलाल पिता घिसा जाती लोढ़ा	चमारी	2.000	0.004
30	25/1/17	मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार	चमारी	1.651	0.006
31	25/1/18	रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोढ़ा	चमारी	0.493	0.002
32	25/9	परीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति परीलाल	चमारी	1.000	0.002
33	25/11	बिरम पिता मांगीलाल प्रेमबाई पत्नी बीरम जाती चमार	चमारी	1.175	0.002
34	25/12	भवरलाल पिता किशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल	चमारी	1.380	0.002
35	25/13	लालसिंह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिंह	चमारी	1.380	0.002
36	25/14	नारायणसिंह पिता किशनलाल शांतिबाई पत्नी नारायण	चमारी	1.380	0.002
37	25/20	नाथु पिता किशना जाती लोढ़ा	चमारी	1.682	0.003
38	25/21	गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोढ़ा	चमारी	0.417	0.002
39	25/22	गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोढ़ा	चमारी	3.667	0.002
40	25/23	रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोढ़ा	चमारी	2.984	0.002
41	9/2	बापूलाल मोतीलाल शंकरलाल पिता देवसिंह जाती लोढ़ा प्रेमसिंह ग्यारसीराम पाचूलाल पिता दल्ला जाती लोढ़ा	चमारी	0.759	0.012
42	9/2/2/1	प्रेमसिंह पिता दल्ला जाती लोढ़ा	चमारी	1.052	0.012
43	9/2/2/2	ग्यारसीराम पिता दल्ला जाती लोढ़ा	चमारी	1.053	0.012
44	9/2/2/3	पाचूलाल पिता दल्ला जाती लोढ़ा	चमारी	1.053	0.012
45	9/2/2/4	कैल्यालाल पिता दल्ला जाती लोढ़ा	चमारी	1.053	0.012
46	11/1	मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.591	0.007
47	11/2	नारायण पिता श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.591	0.007
48	11/3	रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.592	0.007
49	11/4	रोड्डी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.592	0.008
50	15/1/1	मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.038	0.004

51	15/1/2	नाराण पिता श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.038	0.003
52	15/1/3	रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.038	0.003
53	15/2	मांगीलाल नाराण पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा रामप्रताप रोडजी पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.013	0.004
54	12/1	कचनबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.518	0.013
55	12/2	मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.132	0.013
56	12/3	नारायण पिता श्रीलाल भावरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.132	0.013
57	12/4	रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.132	0.013
58	12/5	रोडजी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	1.132	0.013
59	3/1	भागीरथी पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	2.276	0.001
60	3/2/1	मांगीलाल नारन रामप्रसाद रोडजी पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.126	0.001
61	3/2/2	मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा	चमारी	0.465	0.001
कुल योग	61			42.206	0.211
ग्राम-दिलावरी				तहसील -राजगढ़	
1	15	देव्या पिता भोना	दिलावरी	0.152	0.034
कुल योग	1			0.152	0.034

जूही गर्ग, सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन).

**कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ,  
जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश**

प. क्र. 1238-री-1-भू-अर्जन-2023

झाबुआ, दिनांक 5 अप्रैल 2023

रा. प्र. क्र. 001-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"**

**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,	12/1	0.014
			13	0.018
			40/2	0.048
			40/1	0.017
			28/5	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,	28/4	0.010
			32	0.025
			93/1	0.036
			99/17	0.019
			93/2	0.011
			93/3	0.022
			99/18	0.023
			99/4	0.018
			99/19	0.029
			114/1	0.016
कुल योग			15	0.321

प. क्र. 1243-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 002-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।



कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25,	324	0.009
			325	0.025
			327	0.037
			301	0.040
			300	0.032
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25,	292	0.025
			293	0.020
			290/1	0.012
			263/3	0.035
			269	0.008
			271	0.011
			268	0.011
			275	0.005
			274	0.023
			279/1	0.033
			279/2	0.015
			279/4	0.023
			248	0.023
			246/1	0.090
			246/5	0.043
			246/6	0.008
			25	0.019
			21/419	0.070
कुल योग			23	0.617

प. क्र. 1248-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 003-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-27, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-27,	190/1	0.030
			189	0.015
			190/2	0.030
			190/3	0.030
			185	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-27,	68	0.040
			188	0.020
			187	0.040
			226	0.010
			67	0.035
			62/3	0.030
			62/2	0.025
			78	0.040
			76	0.025
			80	0.020
			85/1	0.016
			97/2	0.013
			3/1	0.013
			85/2	0.016
			97/3	0.013
			85/3	0.017
			97/1	0.013
			85/4	0.017
			98	0.030
कुल योग			24	0.553

प. क्र. 1253-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 004-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30,	81/1	0.064
			74/6	0.009
			61/2	0.009
			74/5	0.023
			61/1	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30,	73	0.028
			72	0.005
			60	0.028
			58	0.020
			56	0.011
			61/3	0.005
			62	0.045
			57	0.014
			32	0.004
			33/5	0.005
			33/1	0.010
			33/2	0.015
			33/3	0.008
			24/1	0.019
			23	0.004
			21	0.033
			20	0.014
			19	0.021
			13	0.034
			221/3	0.035
			221/4	0.060
			223	0.015
कुल योग			27	0.547

प. क्र. 1258-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 005-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,	742	0.040
			741	0.015
			585	0.020
			586	0.016
			587	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,	588	0.017
			580	0.035
			573	0.014
			563/2	0.028
			559/2	0.033
			561/2	0.008
			561/3	0.003
			540	0.054
			544	0.025
			526/2	0.014
			526/1	0.016
			527	0.005
			528	0.005
			532/1	0.015
			530/1	0.025
			488	0.020
			497	0.015
			424	0.045
			427	0.025
			425	0.020
			238	0.065
			242	0.050
			246	0.020
			280	0.015
			247	0.030
			248	0.005
			279	0.020
			292	0.030
			277	0.050
			कुल योग	

प. क्र. 1263-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 006-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"**  
**{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धांधलपुर, प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-धांधलपुर, प.ह.नं.-34	625/2	0.105
			511	0.009
			502	0.034
			503	0.006
			498/2	0.024
कुल योग			05	0.178



प. क्र. 1268-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 007-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.न.-45	375/3	0.011
			375/2	0.015
			358/1	0.005
			359/2	0.039
			360/1	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-श्यामपुरा, प.ह.न.-45	358/2	0.004
			359/3	0.006
			360/2	0.006
			361	0.025
			353	0.014
			244	0.083
			242	0.014
			239	0.008
			241	0.044
			223	0.008
			225	0.023
			226	0.032
कुल योग			17	0.352

प. क्र. 1273-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 008-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खेड़ली, प.ह.न.-21, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, कैंबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ली, प.ह.न.-21	53	0.036
			55/2	0.055
			55/1	0.048
			99	0.079
			19	0.010
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ली, प.ह.न.-21	98	0.075
			94	0.004
			86	0.018
			89	0.014
			88	0.014
			24	0.044
			23	0.023
			21	0.038
			141/15	0.013
			108	0.032
			116/2	0.014
			116/1	0.028
			117/6	0.046
			158	0.022
कुल योग			19	0.613

प. क्र. 1278-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 009-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45	208	0.008
			204	0.010
			203	0.034
			201/2	0.023
			202	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45,	44	0.028
			45/2/1	0.059
			48/2	0.058
			45/1	0.060
			48/3	0.040
			47/2	0.015
			31/1	0.019
			24/1	0.045
कुल योग			13	0.413

प. क्र. 1283-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 010-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.न.-50 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू प. ह.न.-35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - फतेहपुरा प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम — फतेहपुरा प.ह.न. 37	173	0.047
			168/1	0.047
			150/1	0.031
			163/5	0.037
			163/4	0.023
झाबुआ	रामा	ग्राम — फतेहपुरा प.ह.न. 37,	148	0.026
			149	0.007
			140	0.010
			139	0.030
			123	0.040
			119/2	0.034
			119/1	0.019
			122	0.038
			126	0.009
			72	0.017
			73	0.018
			19	0.039
			21	0.015
			18	0.005
			23	0.119
			30	0.030
			27	0.004
कुल योग			22	0.645

प. क्र. 1288-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 011-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू, प. ह.नं.-35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— बामनसेमलिया, प.ह.नं.— 61,	120	0.020
			119	0.058
कुल योग			02	0.078

प. क्र. 1293-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 012-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - मेलपाडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - मेलपाडा प.ह.न. 68	348	0.025
			301	0.008
			343	0.054
			311	0.018
			312	0.061



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम — मेलपाडा प.ह.न. 68	164	0.020
			184	0.018
			183	0.045
			177/2	0.062
			177/1	0.030
			148	0.045
			70	0.030
			149	0.008
			115	0.010
कुल योग			14	0.434

प. क्र. 1298-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 013-ब-121-2023-24

### प्ररूप— “ख”

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-डूंगरालालू, प.ह.न.-50, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— डूंगरालालू प.ह.न.—50	226	0.004
			224	0.003
			221	0.010
			218	0.036
			189	0.010
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— डूंगरालालू प.ह.न.—50	211	0.020
			210/1	0.006
			200	0.015
			101	0.002
			100	0.030
			99	0.030
			106	0.003
			107	0.026
			119/2	0.034
			111	0.030
			117/2	0.020
			117/1	0.022
कुल योग			17	0.301

प. क्र. 1303-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 014-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम – बड़लिया प.ह.न. 69	155	0.005
			156	0.027
			151	0.074
			146	0.065
		कुल योग		04

प. क्र. 1308-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 015-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68,	502	0.038
			487	0.003
			485	0.041
			464	0.018
			499/2	0.066

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68,	497	0.020
			498	0.010
			486	0.013
			484	0.014
			488	0.032
			417	0.004
			416	0.035
			415	0.042
			137	0.005
			136	0.025
			139	0.012
			140	0.008
			146	0.002
			151	0.076
			150	0.055
			160	0.069
			27	0.007
कुल योग			22	0.595

प. क्र. 1313-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 016-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.मं.-01, झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— चारोलीपाड़ा, प.ह.न.—59,	249/2	0.012
			249/1/2/1	0.020
			249/1/2/2	0.008
			249/1/1	0.034
			246	0.002
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम— चारोलीपाड़ा, प.ह.न.—59,	225	0.058
			224	0.036
			187	0.074
			165	0.006
			166	0.025
			113	0.080
			111	0.017
			118	0.013
			112	0.012
			119	0.046
			121	0.074
कुल योग			16	0.517

प. क्र. 1318-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 017-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम - देवझरी पण्डा प.ह.न. 46	21	0.009
			20	0.025
			19	0.005
			90/1/2/1	0.015
			90/2	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	झाबुआ	ग्राम — देवझरी पण्डा प.ह.न. 46,	90/3	0.011
			91	0.035
			147/1	0.022
			147/2	0.011
			147/3	0.011
			146/1	0.012
			155/6	0.012
			155/11	0.011
			170/3	0.014
			146/4	0.007
			155/4	0.002
			155/8	0.008
			155/10	0.005
			170/2	0.020
			146/5	0.007
			155/5	0.006
			155/7	0.005
			155/9	0.006
			170/1	0.006
			163/3	0.042
			163/4	0.015
			165	0.025
			168	0.003
			166	0.021
			194/1	0.005
			185/4	0.016
			185/6	0.015
			185/7	0.012
			184/3	0.010
			184/4	0.003
कुल योग			35	0.442



प. क्र. 1323-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 018-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी प.ह.न. 37,	58/2	0.004
			57	0.023
			60	0.017
			50	0.017
			17	0.052

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम — छापरी प.ह.न. 37,	49/6	0.071
			51	0.005
			49/4	0.015
			15/1	0.018
			15/2	0.020
			15/3	0.016
कुल योग			11	0.258

प. क्र. 1328—री-1—भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 019—ब-121—2023—24

### प्ररूप— “ख”

#### { नियम— 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा—झाबुआ—पेटलावद—थांदला—सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.—1 से पी.एस.—5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.—2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम—झुमका, प.ह.न.—45, रा.नि.मं.—03, पारा, तहसील—रामा, जिला—झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—30, मनावर, जिला— धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला— झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम—झुमका, प.ह.न.—45,	181	0.028
			139	0.005
			182	0.015
			143	0.044
			185	0.005
झाबुआ	रामा	ग्राम—झुमका, प.ह.न.—45,	189	0.018
			147	0.017
			177/1	0.003
			176/1	0.065
			191/3	0.008
			191/2	0.006
			134/2	0.033
			197/4	0.003
			197/3	0.014
			197/2	0.013
			197/1	0.010
			194	0.035
			145	0.02
			149	0.005
			137/2	0.049
			118/2	0.018
			118/1	0.028
			116	0.007
			114/2	0.007
			114/3	0.006
			6/2	0.005
			7	0.034
			9	0.04
			11	0.015
कुल योग			29	0.556

प. क्र. 1333-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 020-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू, प. ह.नं.-35, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम - छापरी प.ह.न. 37	310	0.025
			311/4	0.038
			338/4	0.014
			338/2	0.015
			311/3	0.070

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम – छापरी प.ह.न. 37,	338/1	0.010
			338/3	0.020
			286	0.093
			92	0.055
			349/12	0.010
			349/11	0.016
			349/10	0.002
			349/2	0.029
			90/2	0.017
			90/3	0.005
			90/1	0.030
			82	0.079
			66/6	0.037
			66/2	0.031
			66/3	0.022
			66/1	0.037
			59/1	0.020
			59/2	0.028
			58/2	0.030
			57	0.015
			60	0.029
			55	0.002
			49/7	0.029
53	0.034			
कुल योग			29	0.842

प. क्र. 1343-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 022-ब-121-2023-24

प्ररूप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,	196/1	0.026
			194	0.024
			167	0.024
			181/1	0.025
			166	0.009
झाबुआ	रामा	ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,	165	0.013
			164/1	0.009
			163	0.008
			162	0.008
			61	0.040
			62	0.048
			133/1	0.025
			133/3	0.011
			133/4	0.005
कुल योग			14	0.275

प. क्र. 1338-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 021-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दौयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम.-11) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04,	230	0.023
			358	0.051
			241	0.033
			242	0.063
			359	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम— मोकमपुरा, प.ह.न.—04,	360/2	0.008
			360/3	0.030
			360/4	0.015
कुल योग			08	0.258

प. क्र. 1348-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 023-ब-121-2023-24

### प्ररूप— "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कागलखों, प.ह.न.—03, रा.नि. मं.—01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।



## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-कागलखों, प.ह.न.-03,	272	0.030
			273	0.026
			274/1	0.005
			251	0.045
			250	0.029
झाबुआ	रामा	ग्राम- कागलखों, प.ह.न.-03,	238	0.023
			134	0.016
			133	0.035
			249/11	0.013
			249/10	0.010
			249/9	0.005
			249/8	0.003
			240/2	0.007
			240/1	0.014
			43/2	0.020
			42	0.024
			44	0.014
			49	0.050
			48/1	0.009
			48/2	0.020
			152/2	0.047
			58/2	0.097
			58/1	0.053
			131	0.025
			130	0.033
			128/6	0.005
			128/7	0.048
			77/1	0.021
			79/1	0.018
			81/1	0.025
कुल योग			30	0.770

प. क्र. 1193-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 024-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-दुधी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**, झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-दुधी, प.ह.न.-04	695/2	0.025
			695/3	0.023
			674/3	0.024
			649/1	0.018
			649/2	0.050

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-दुधी, प.ह.न.-04	649/4	0.007
			601/3	0.019
			601/1	0.012
			649/3	0.009
			601/2	0.024
			651	0.013
कुल योग			11	0.224

प. क्र. 1198-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 025-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01,	1119/1	0.033
			1119/2	0.040
			1125	0.103
			1127	0.028
			1151	0.027
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01,	770	0.020
			772/2	0.015
			767	0.008
			764/2	0.049
			783	0.087
			784/1	0.020
			785	0.064
			794	0.033
			787	0.027
			823	0.049
			822	0.023
			824	0.031
			825	0.003
			826	0.029
			604	0.024
			603	0.045
			585/2	0.053
			585/1	0.010
			853/2	0.014
			853/6	0.015
			853/5	0.017

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01,	574/2	0.045
			853/1	0.018
			570	0.053
			290	0.013
			195	0.019
			196	0.036
			314/3	0.018
			314/1	0.016
झाबुआ	रामा	ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01,	293/1	0.020
			292/1	0.010
			293/2	0.035
			199/4	0.005
			199/3	0.030
			200/3	0.005
			199/2	0.005
			200/2	0.010
			205	0.014
			204	0.023
कुल योग			44	1.227

प. क्र. 1203-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 026-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03,	580	0.017
कुल योग			01	0.017

प. क्र. 1208-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 027-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24	350	0.016
			351/1	0.018
			352	0.035
			354	0.004
			358/3	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम—छापरी, प.ह.न.—24,	362/1	0.015
			362/2	0.015
			365/2	0.003
			365/3	0.015
			365/4	0.029
			374/2	0.009
कुल योग			11	0.183

प. क्र. 1213-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 028-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।



## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21,	201	0.015
			200	0.020
			199	0.030
			179	0.018
			175	0.010
झाबुआ	रामा	ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21,,	178	0.015
			177/1	0.023
			205	0.040
			180/3	0.010
			177/2	0.023
			158	0.013
			157	0.049
			156	0.035
			78/2	0.017
			154	0.005
			91	0.004
			92	0.003
			148	0.008
			147/3	0.015
			144/1	0.020
			143	0.013
			142	0.007
			105/2	0.008
			104/2	0.044
			103/1/1/1/1/1	0.030
			105/1/1/1	0.008
			107	0.019
			24/1/1/1/1/1	0.017
			261/8	0.054
			24/1/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/1/2	0.0034
			24/1/1/2	0.0034
			24/1/2	0.0034
			24/2	0.0034
			46/1	0.008
			45/1	0.018
			18/1/1	0.005
कुल योग			37	0.621

प. क्र. 1218-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 029-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-धांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-साड़, प.ह.न.-17, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-साड़, प.ह.न.-17,	331	0.015
			323/1	0.030
			323/2	0.018
			322	0.030
			336/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम—साड़, प.ह.न.—17	317	0.008
			315/1	0.013
			314	0.025
			277/2	0.005
			277/3	0.025
			271/3	0.031
			270	0.025
			269	0.005
			267	0.008
			130	0.033
			134	0.063
			135	0.020
			216	0.035
			207	0.013
			208	0.048
			204	0.020
			203	0.038
			172/2	0.015
			169/1	0.005
			171/1	0.025
			172/1	0.024
			168	0.004
			164	0.023
कुल योग			28	0.614

प. क्र. 1223-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 030-ब-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दायी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम.-11) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु **ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02, रा.नि.मं.-01, रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।**

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।**

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,	1056/1	0.090
			1018/6	0.008
			1018/3	0.020
			701/5	0.023
			953/5	0.025

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,	953/3	0.028
			1018/5	0.029
			1018/2	0.024
			953/4	0.008
			1015/1	0.023
			1014	0.008
			998	0.033
			1012/4	0.008
			950	0.017
			710	0.032
			713/2	0.035
			723	0.008
			722	0.015
			724/2	0.015
			721	0.024
			748/6	0.011
			800/1	0.034
			800/2	0.031
			89/1	0.010
			805/2	0.023
			805/1	0.028
			809/7	0.018
			809/6	0.014
			809/5	0.014
			809/1	0.043
67	0.048			
कुल योग			31	0.747

प. क्र. 1228-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 031-ब-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फतेपुरा, प.ह.न.-18, रा.नि.मं.-02, उमरकोट, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-फतेपुरा, प.ह.न.-18,	89/1	0.046
			89/4	0.016
			89/2	0.016
			89/3	0.016
			89/5	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम-फतेपुरा, प.ह.न.-18,	89/7	0.047
			88	0.018
			82/2	0.050
			82/1	0.010
			69	0.057
			68	0.048
			7	0.029
			9	0.020
			8	0.022
कुल योग			14	0.411

प. क्र. 1233-री-1-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 032-ब-121-2023-24

### प्ररूप- "ख"

#### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.न.- 33, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33,	1452/2	0.023
			1449	0.027
			1448	0.085
			1389	0.094
			1371	0.075
झाबुआ	रामा	ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33	1370	0.029
			1357	0.086
			1359	0.029
			213	0.010
			922	0.010
			919	0.015
			916/मिन-2	0.073
			912	0.010
			910	0.010
			909	0.023
			898	0.030
			899	0.010
			900	0.010
			901	0.015
			902	0.025
			903	0.015
			904	0.023
			890	0.021
			889	0.026
			880	0.023
			878	0.005
			882	0.010
			873	0.005



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
झाबुआ	रामा	ग्राम— खरडू बड़ी, प.ह.नं.— 33	874	0.040
			875	0.020
			310	0.013
			866	0.010
			313/3	0.040
			324/1	0.030
			324/2	0.010
			323	0.045
			320/1	0.030
			320/14	0.013
			320/15	0.005
			320/17	0.011
			335	0.015
			338/6	0.003
			339/1	0.025
			340/2	0.025
झाबुआ	रामा	ग्राम— खरडू बड़ी, प.ह.नं.— 33	340/3	0.015
			345/1	0.013
			275	0.065
			270	0.030
			271	0.040
			268	0.005
			267/2	0.028
			267/1	0.015
			265/3	0.035
			265/2	0.016
			265/1	0.050
			246	0.016
			245	0.035
			236/2	0.020
			237/3	0.005
			235/2	0.010
237/4	0.022			
237/5	0.036			
कुल योग			62	1.608

सुनील झा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर,  
जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

प. क्र. 1241-भू-अर्जन-2023

इन्दौर, दिनांक 27 अप्रैल 2023

रा. प्र. क्र. 05-B-121-2023-24

## प्ररूप- "ख"

### { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64, रा.नि.मं.-03, सिमरोल, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64	413/1/1	0.004
			412/2/2	0.024
			412/2/1	0.024
			424/3	0.004
			425/2/1	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64	411/2/1	0.012
			426/2/1	0.012
			426/1	0.012
			618/2	0.006
			619/2	0.007
			651/2	0.032
			411/1/1	0.016
			392/2	0.002
			392/1	0.011
			391	0.009
			389/1	0.033
			435/1/1/2	0.021
			435/1/1/1	0.020
			479	0.014
			475/3	0.014
			282/1/2	0.018
			282/1/1/4	0.024
			550/1/4	0.004
			639/1	0.008
			641/1/1	0.016
			642	0.014
			644/6	0.006
			644/5	0.007
			643	0.007
			644/4	0.008
			631/2	0.002
			630/2	0.013
			629	0.012
			628/4	0.010
			628/3	0.009
			628/2	0.009
			620/4	0.013
			618/3	0.016
			618/1	0.013
			657/3	0.018
			657/2	0.003
			662/4	0.013
			665/3	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64	665/2	0.016
			664	0.010
			3/1/1	0.006
			3/2	0.006
			3/1/2	0.001
			3/1/3	0.004
			3/3	0.003
			15	0.005
			12/1	0.005
			12/2	0.006
			19/1	0.017
			39	0.008
			41	0.006
			43/4	0.007
			43/5/1	0.006
			43/3	0.005
			102	0.002
			101/1	0.007
			100	0.004
			99/1	0.002
			99/2/2	0.002
			99/2/4	0.002
			99/2/3	0.002
			98/2	0.001
			160/3	0.009
			168	0.007
			170	0.004
			171/2	0.007
			173	0.016
			174/2	0.001
			175/3	0.003
			175/2	0.004
			136	0.007
			135/1	0.005
			16/1	0.002
कुल योग			78	0.748

प. क्र. 1239-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 02-B-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन, ग्रेविटीमेन-1 व ग्रेविटीमेन-2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23, रा.नि.मं.-03, सिमरोल, तहसील- डा. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- अम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,	605	0.002
			599/2	0.024
			598/3	0.021
				0.012
			597/1	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम— आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61 / 23,	597/2	0.013
			599/3	0.005
			493/2/1/1	0.008
				0.007
			493/2/1/2	0.005
			493/4	0.020
			493/7	0.007
			500/2	0.007
			499	0.020
			496	0.010
			138/2	0.003
			239	0.006
			512/1	0.015
			514	0.007
			461	0.004
			462/1	0.005
			460	0.014
			459/1	0.016
			305	0.035
			309	0.009
			340/2	0.004
			340/1/2	0.009
				0.009
			316/1	0.009
			317/2	0.015
			317/4	0.011
			323	0.004
			327	0.012
			329	0.002
			240	0.004
			236/2	0.004
			238	0.001
			237	0.004
			227	0.005
			225	0.012
			258/1073	0.005
			258/2	0.005
			258/1	0.004
			798	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम— आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,	798/1131/2	0.003
			813/2	0.005
			814	0.003
			815	0.001
			818	0.002
			819	0.002
			829/2	0.001
			828	0.010
			826	0.010
			825	0.003
			824/1	0.004
			824/2	0.001
			964	0.003
			965/1	0.002
			963/3	0.007
			963/1	0.002
			340/1/1	0.005
			341/1	0.004
			342/1	0.003
			367	0.006
			360	0.011
			359	0.002
			361	0.005
			355	0.004
			382/2	0.002
			387/1	0.005
			384	0.004
			386	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम— आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61 / 23,	385	0.008
			116/2	0.007
			115/9	0.003
			115/10	0.003
			115/3	0.005
			115/2	0.005
			107/1124	0.001
			107/2/1	0.009
			108	0.001
			109	0.005
			110	0.005
			99/2	0.001
			100/2	0.011
कुल योग			82	0.590



प. क्र. 1238-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 03-B-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65, रा.नि.मं.-03, सिमरोल, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65,	889/1	0.019
			889/8	0.007
			889/4/2	0.007
			889/5	0.019
			889/6/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम— सिमरोल, प.ह.नं.— 65,	889/13	0.008
			894/1	0.012
			894/2	0.010
			893/1/1	0.008
			893/1/2	0.012
			892/1	0.004
			893/2/1	0.016
			893/2/2	0.008
			909/2/1	0.029
			911/1	0.018
			912/2/1	0.022
			917/2/1/1/2	0.026
			917/2/1/2/1	0.008
			921/1/1	0.007
			921/4/1	0.030
			930/1	0.024
			930/2	0.024
			933/2	0.035
			933/1	0.017
			941/2/2	0.003
			947/6/2/1	0.011
			947/6/1/1/2	0.014
			947/7/1/1	0.008
कुल योग			28	0.426

प. क्र. 1240-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 04-B-121-2023-24

**प्ररूप- "ख"****{ नियम- 5 का उपनियम (2) }**

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन/डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63, रा.नि.मं.-03, सिमरोल, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महु), जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63,	2337	0.006
			2338	0.015
			2336/2	0.009
			2341/1	0.003
			2340/1	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63,	2340/2	0.002
			2342	0.006
			1689	0.001
			2375	0.004
			2379	0.010
			2383/1	0.014
			2383/5	0.034
			2383/2	0.007
			2385/2	0.002
			2383/3	0.028
			2392/1/2	0.008
			2392/2/2	0.008
			2392/3/2	0.008
			2392/5	0.020
			2392/6	0.018
			2336/1	0.005
			2346	0.001
			2341/2	0.002
			2345/1	0.007
			2345/2	0.009
			2349	0.001
			2351/1	0.043
			2353/1	0.031
			2358	0.015
			2309/1	0.010
			2311	0.002
			2315/2	0.004
			2290/3	0.009
			2290/2/3	0.007
			2286/1	0.009
			2286/2	0.004
			1645	0.001
			1646/2	0.002
			1686/1	0.004
			1686/2/1	0.002
			1686/2/2	0.002
			1683	0.001
			1682/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63,	1682/2	0.005
			1681	0.001
			1673/1/2	0.004
			1673/1/1	0.002
			1673/4	0.004
			1671/2	0.001
			1670/1	0.001
			1617/5	0.004
			1619	0.004
			1615/1	0.002
			1615/2	0.002
			1609/3	0.002
			1604	0.003
			1602	0.005
			1599	0.001
			1600	0.003
			1546	0.002
			1544	0.007
			1506	0.004
			1500/1/2/2	0.011
			1473/1	114 Sqmtrs./ 0.002 hact.
			2290/5	0.011
			2360/2	0.005
			2359/2/2	0.002
			2360/3	0.009
			2360/1	0.011
			2306/1	0.001
			2423	0.006
			2422/1	0.002
			2455	0.003
			2454/2	0.008
			2452/1	0.004
			2452/2	0.018
			2482	0.012
			2524/2/2	0.005
			2527/4/1	0.006
			2527/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	डॉ. अम्बेडकर नगर	ग्राम— दतोदा, प.ह.नं.— 63,	2527/1/1	0.005
			2571/2	0.003
			2527/2	0.007
			2573	0.008
			2572	0.003
			2571/3	0.005
			2586	0.002
			2587/1	0.002
			2587/2/2	0.002
			2587/2/3	0.002
			2595/2	0.001
			2587/2/4	0.002
			2603	0.007
			2604/2	0.002
2612/2	0.007			
कुल योग			95	0.627

राजेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

क्र. 113-भू-अर्जन-2023

देवास, दिनांक 6 अप्रैल 2023

// प्रारंभिक अधिसूचना //

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,  
अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है— सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है :- अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

## अनुसूची-1

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास

क.	विवरण	अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	योग
1.	बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु	0.111	0	0.111

## अनुसूची-2

बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन	170/5/2/मि-2 पे.	1.606	-	1.606	0.040	-	0.040
2	दीपक पिता स्व. सुरेन्द्र सहगल	170/5/2/मि-4 पे.	0.4100	-	0.4100	0.0250	-	0.0250
3	मे. टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी तर्फे संचालक अनिल पिता सत्यप्रकाश सहहोत्रा	170/5/2/मि-5 पे.	1.3100	-	1.3100	0.0250	-	0.0250
4	टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन	170/6/मि-3/1 पे.	1.9450	-	1.9450	0.0206	-	0.0206

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2987-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

**प्रारम्भिक अधिसूचना**

क्रमांक/ 2987 /जि.भू.अ./2023

सिवनी दिनांक 24/4/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रामगढ़ जलाशय अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे, उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है। अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्राम का नाम - रामगढ़

ब.नं. - 648

प.ह.नं. - 30

2. रा.नि.मं - चमारीखुर्द

तहसील - छपारा

जिला - सिवनी

3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 17.55 हे.

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति कि.मी.	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	89	भूमिस्वामी	कृषि	2.83	मयाराम पिता लक्ष्मण, लछमन पिता शंकर, इनबर पिता रामलाल, रामलाल पिता शंकर मेहतरानी पुत्री सुखराम जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	वनभूमि शासकीय	मेढो घ.प.स्व. भागचंद	वनभूमि शासकीय	सागौन भिलमा महुआ चार साज	5 5 4 6 1	1	1



2	90/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	बल्लू पिता भागचंद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	बहोरा पिता भागचंद	मेतो ध.प.स्व. भागचंद	-	-	-	-
3	90/2	भूमिस्वामी	कृषि	2.00	चैनसिंग पिता लखनसी जाति गोंड निवासी खमरिया भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	रास्ता शासकीय	बहोरा पिता भागचंद	सागौन भिलमा महुआ	1 1 6	-	-
4	90/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.54	मेतो ध.प. स्व. भागचंद इत्ता इतिया रखिया मोहता रूपा पिता भागचंद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	बहोरा पिता भागचंद	मयासम पिता लक्ष्मण	-	-	-	-
5	90/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	बहोरा पिता भागचंद गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	चैनसिंग पिता लखनसी	बल्लू पिता भागचंद	सागौन भिलमा	2 1	-	-
6	92	भूमिस्वामी	कृषि	1.78	जानकी बाई पति बुद्धलाल जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमि स्वामी	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	सागौन भिलमा महुआ जामुन आवला तेंदु बेर चार साज तिन्सा धवन पलास खसई खमीर	3 1 2 1 1 1 1 9 2 5 1 3 2 1	1 कच्चा कुआ	-

7	93/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.63	आनन्दी पिता गलझर जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	किशोरी पिता गलझर	भू-जल पानी के नीचे	महुआ चार भिलमा सागौन तिन्सा नीम खमीर पलास	5 11 2 3 4 1 2 2		
8	94/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08		किशोरी पिता गलझर	आनंदी पिता गलझर	किशोरी पिता गलझर	वनभूमि शासकीय	महुआ चार सागौन तिन्सा	3 6 1 1		
9	93/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.63	किशोरी पि. गलझर जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	भेल महुआ चार आम लेडिया साज	1 2 5 1 1 2		
10	94/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	किशोरी पि. गलझर जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	किशोरी पिता गलझर	किशोरी पिता गलझर	किशोरी पिता गलझर	आनंदी पिता गलझर	महुआ चार सागौन	1 3 4		
11	94/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	गिरिजाबाई भीराबाई पिता गलझर जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	सहसकुमार पिता फागूलाल	रास्ता शासकीय	वनभूमि शासकीय	गिरजाबाई पि. गलझर				
12	95/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	राजकुमार पिता फागूलाल जाति गोंड नि. रामगढ़ भूमिस्वामी	राजकुमार पि. फागूलाल	सहसकुमार पि. फागूलाल	सहसकुमार पि. फागूलाल	आसुरकुमार पि. फागूलाल				

13	95/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	कन्यैया लाल पिता रामकुमार जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकुमार पि.फागूलाल	शारदकुमार पि.फागूलाल	भू-जल पानी के नीचे	महुआ	1	कच्चा कुआ	-
14	95/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	सहसकुमार पिता फागूलाल जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	शारदकुमार पि.फागूलाल	गिरजाबाई पिता गलझर	वनभूमि शासकीय	भू-जल पानी के नीचे	चार महुआ	3 1	-	-
15	95/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.90	शरदकुमार पिता फागूलाल जाति गोंड नि. रामगढ़ भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकुमार पि.फागूलाल	आसुरकुमार पि. फागूलाल	कन्यैया पिता रामकुमार	बेर चार सागौन	1 4 2	-	-
16	95/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.50	आसुरकुमार पिता फागूलाल जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	भू-जल पानी के नीचे	सहसकुमार पि.फागूलाल	आसुरकुमार पि. फागूलाल	कन्यैया पिता रामकुमार	चार महुआ	2 1	-	-
17	72/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.55	धुरीलाल पिता तुलसी जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	धुरीलाल पिता तुलसी	बल्लू पिता भागचंद	भू-जल पानी के नीचे	वनभूमि शासकीय	-	-	-	-
18	96	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	विनोदकुमार पिता रघू जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	विनोद पिता रघू	विनोद पिता रघू	अतरलाल पिता फुलझर	राजकुमार पिता फागूलाल	-	-	-	-

19	98	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	अतरलाल पिता फुलझर जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	अतरलाल पिता फुलझर	अतरलाल पिता फुलझर	रामलाल पिता झाड़ू	अतरलाल पिता फुलझर	-	-	-	-
20	99/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामलाल पि.झाड़ू जाति गोंड नि. रामगढ़ भूमिस्वामी	रामलाल पिता झाड़ू	रामलाल पिता झाड़ू	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल	अतरलाल पिता फुलझर	-	-	-	-
21	99/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल नीलमराज प्रेमप्रकाश निधि दीपकराज पिता बाबूलाल निवासी छपारा भूमिस्वामी	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल	रामलाल पिता झाड़ू	-	-	-	-
22	99/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल	गीता पिता झाड़ू	प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल	-	-	-	-
23	100	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	गीता पिता झाड़ू जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	गीता पिता झाड़ू	गीता पिता झाड़ू	रास्ता शासकीय	पुरुषोत्तम पिता इन्दरलाल	-	-	-	-
24	112/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	परसाद पिता मंगलसी जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	विमानसिंह पिता परसादी	रास्ता शासकीय	परसाद पिता मंगलसी	परसाद पिता मंगलसी	-	-	-	-

25	112/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	गुलाबसी पिता परसाद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	विमानसिंह पिता परसादी	परसाद पिता मंगलसी	गुलाबसी पिता परसाद	गुलाबसी पिता परसाद	-	-	-	-
26	112/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	विमानसिंह पिता परसादी जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	चैनसिंह पिता परसाद	गुलाबसी पिता परसाद	विमानसिंह पिता परसादी	विमानसिंह पिता परसादी	-	-	-	-
27	112/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	चैनसी पिता परसाद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	उमरसी पिता परसाद	विमानसिंह पिता परसादी	चैनसी पिता परसाद	चैनसी पिता परसाद	-	-	-	-
28	112/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	उमरसी पिता परसाद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी	उमरसी पिता परसाद	चैनसी पिता परसाद	उमरसी पिता परसाद	उमरसी पिता परसाद	-	-	-	-
29	114/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	बालकराम पिता खुमानसिंह जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बालकराम पिता खुमानसिंह	बालकराम पिता खुमानसिंह	तामसिंग पिता खुमान	सोमती घ.प.स्व. खुमान	-	-	-	-

30	114/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	तामसिंग पि खुमान सिंह जाति गोंड नि रामगढ़ भूमिस्वामी	तामसिंग पिता खुमान	तामसिंग पिता खुमान	भू-जल पानी के नीचे	बालकराम पिता खुमानसिंह	-	-	-	-
31	114/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	सोमती ध. प.स्व. खुमान तामसिंग बालकराम रामसिंग कल्लोबाई पिता खुमान हलकिया ध.प.स्व. गलझरिया कोमली थानी रामभरोस बीरन सीताराम पुनिया सुबिया पि. गलझरिया मानसी सामना ध. प.स्व.कोमल मोहनसिंह पिता कोमल जानकी मानो प्रेम विनो गीता सीता पिता गलझरिया जाति गोंड नि.रामगढ़ भूमिस्वामी	सोमती ध.प.स्व. खुमान	सोमती ध.प.स्व. खुमान	बालकराम पिता खुमानसिंह	चमेरसी पिता परसाद	-	-	-	-
32	115	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	कन्हैया हीरालाल टीकाराम पिता जगन्नाथ सियाबाई बेवा सरवन शिवकुमार रमेशकुमार महेशकुमार	महेश पिता सखन	भू-जल पानी के नीचे	भू-जल पानी के नीचे	तामसिंग पिता खुमान	-	-	-	-

33	126/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी	महेश पिता सखन	भू-जल पानी के नीचे	भू-जल पानी के नीचे	तामसिंग पिता खुमान	-	-	-	-
34	125	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	कन्हैया हीरालाल टीकाराम पिता जगन्नाथ सियाबाई बेवा सरवन शिवकुमार रमेशकुमार महेशकुमार मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी	इन्दर पिता लालजू	रमेश पिता सरवन	रामशंकर पिता बालकचंद	भू-जल पानी के नीचे	-	-	-	-
35	126/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रमेश पिता सरवन जाति परधान नि. सिवनी भूमिस्वामी	जानकीबाई पति बुद्धलाल	रास्ता शासकीय	कन्हैया पिता जगन्नाथ	भू-जल पानी से नीचे	-	-	-	-
36	218	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	गंगाबाई पत्नी रुक्मिणी जाति गोंड निवासी सिवनी भूमिस्वामी	रामशंकर पिता बालकचंद	चारागाह शासकीय	चारागाह शासकीय	कन्हैया पिता जगन्नाथ	-	-	-	-
37	284/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	मु.सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी नरेन्द्रकुमार भूपेंद्रकुमार रामकुमार पिता विशन जाति गोंड भूमिस्वामी	अनुपचंद पिता अमरू	जैसिंह पिता रामू	मु सिया पिता सुमरसी	चारागाह शासकीय	-	-	-	-

38	284/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	मु.सिया पिता सुमरसी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	अनुपचंद पिता अमरू	मु सिया पिता सुमरसी	वीरेन्द्र पिता बल्लूलाल	चारागाह शासकीय	-	-	-	-
39	284/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	वीरेंद्र गोविंद राजकुमारी पिता बल्लूलाल जाति गोंड भूमिस्वामी	अनुपचंद पिता अमरू	रास्ता शासकीय	अब्दुर्रहमान पिता शेख सफीक	सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी	-	-	-	-
40	287/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	जमशेदाबी पति मरहूम शेख शरीफ जाति मुसलमान भूमिस्वामी	मो. शफी पिता शेख मजिद	रास्ता शासकीय	शेजादी बी पति मो. शफी	अब्दुर्रहमान पिता शेख सफीक	-	-	-	-
41	287/1/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	अब्दुर्रहमान पि. शेख शफीक जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मो. शफी पिता शेख मजिद	अमरवती पति सजनलाल	जमसेदा बी पति मरहूम शेख शरीफ	वीरेन्द्र पिता बल्लूलाल	-	-	-	-
42	287/2/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सहजादीबी पति मो. शफी जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी	मो. आबिर पिता मो. शफी	जमसेदा बी पति मरहूम शेख शरीफ	मो. युसूफ पि. अब्दुल हाकिम	चारागाह शासकीय	-	-	-	-
43	271	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	मो.युसूफ अयूब पि. अब्दुल हकीम मंसूर शम्सगोस फिरदोस पिता मुस्तकीम इब्राहीम शेख जमाल शे. जब्बार जलील वाहिद पिता अ. करीम, रज्जाक बाहब पिता शेख	भू-जल पानी के नीचे	रास्ता शासकीय	श्रीमति सलमा पति मो. साबिर	मो. शफी पि. शेख मजिद	-	-	-	-



				मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी								
योग			17.55								141	

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प. क्र. 1768-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

हरसूद, दिनांक 28 अप्रैल 2023

प्ररूप-ख  
[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ७०७७ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 का उपधारा (1) के अर्जन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कास दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कसरावद, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			246/1/1	0.008
			246/1/2	0.007
			244/1	0.003
			245/2	0.008
			245/1	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —कसरावद, प.ह.न.—40,	245/3	0.003
			185/2	0.002
			182/1	0.005
			184/1/2	0.005
			184/1/3	0.002
			247/1	0.004
			248/1	0.006
			248/2	0.003
			298/5	0.002
			298/1	0.012
			297	0.003
			301	0.005
			302	0.005
			303/2	0.005
			303/3	0.001
योग निजी भूमि			20	0.090
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —कसरावद, प.ह.न.—40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			244/2	0.001
			167	0.001
			300	0.001
			246/2	0.003
योग शासकीय भूमि			04	0.006
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			24	0.096

प. क्र. 1772-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख  
[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००74 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.-23/47, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			182/1/1	0.004
			134/4	0.008
			135/1	0.006
			136	0.003
			137/1	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मोही रैय्यत, प.ह.न. —23/47,	137/2	0.001
योग निजी भूमि			06	0.035
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मोही रैय्यत, प.ह.न. —23/47,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			160	0.001
			175	0.013
			176	0.001
			183/10	0.007 0.015
			183/9	0.004
			182/8	0.008
			159	0.001
			134/3	0.003
योग शासकीय भूमि			08	0.053
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			14	0.088

प. क्र. 1775-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००७६ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			100/2	0.006
			115/3	0.001
योग निजी भूमि			02	0.007
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			100/1	0.004
			98	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.005
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			04	0.012

प. क्र. 1778-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००१५ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिराको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			689/2	0.001
			689/1	0.012
			677	0.008
			679/1	0.005
			675/1	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बड़खलिया, प.ह.न.—23	673/1	0.004
			672/1	0.002
			669/1	0.002
			668/1	0.004
			666/3	0.003
			665	0.004
			660/3	0.005
				0.001
			659/3	0.008
			317/1	0.001
			320/1	0.002
			323/2	0.004
			329/3/1	0.001
			329/3/2	0.003
			331/1	0.005
			331/2	0.005
			332/2	0.009
			333/1	0.003
			334/3	0.001
			334/2	0.002
			335/1	0.002
			335/2	0.001
			336/2	0.001
			336/1	0.002
योग निजी भूमि			28	0.105
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बड़खलिया, प.ह.न.—23	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			678	0.001
				0.001
				0.001
			657	0.001
			656	0.003
			655	0.001
			654	0.010
			651	0.001
			649	0.004



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बड़खलिया, प.ह.न.—23	650	0.001
			632	0.016
			633	0.001
			628	0.001
			627/2	0.004
			627/1	0.003
			317/3	0.007
			317/2	0.005
			320/3	0.016
			325	0.001
			333/2	0.001
			334/1	0.001
			338	0.008
			339/1	0.001
			339/2	0.004
			343	0.001
			345	0.006
			346	0.003
			349/2	0.009
			350	0.006
			351	0.006
			352	0.004
			354	0.006
			355	0.007
			250	0.001
			248	0.003
			249	0.002
			246	0.001
			244	0.003
			241/1	0.001
			241/2	0.006
			240	0.004
योग शासकीय भूमि			39	0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			67	0.267

प. क्र. 1781-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक— ००७० /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील— हरसूद, जिला—खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम —मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील —हरसूद, जिला — खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला— नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			319/4	0.018
			319/1	0.019
			309/1	0.013
			308/3	0.014
			308/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मौजवाड़ी माल, प.ह.न.—26,	307/3	0.011
			33	0.005
			31	0.001
			28	0.004
			27	0.004
			26	0.005
			76	0.005
			77/1	0.015
			78/2	0.014
				0.004
			78/3	0.008
				0.001
			83/1	0.012
				0.001
			78/4	0.009
			167/1	0.006
			167/2	0.009
			167/3	0.003
			166	0.002
			176/1	0.005
			83/2	0.001
			169/1	0.026
				0.012
			169/3	0.006
			169/2/1	0.011
			169/2/2	0.009
			170	0.010
			83/4	0.009
			81	0.001
योग निजी भूमि			30	0.274
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मौजवाड़ी माल, प.ह.न.—26,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			320/1	0.023
			321	0.015
			315	0.002
			311/2	0.020
			310	0.027
			301	0.002
			46	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मौजवाड़ी माल, प.ह.न.—26,	47	0.001
			49	0.046
			52/1	0.014
			52/2	0.023
			53	0.002
			57/2	0.022
			57/1	0.032
				0.017
			59	0.008
				0.010
			61	0.005
			60	0.011
			74	0.001
			75	0.055
			13/2	0.021
				0.001
			84	0.001
				0.001
			82	0.001
			171	0.001
योग शासकीय भूमि			23	0.363
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			53	0.637

न. क्र. 1815-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक— ००७३ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील— हरसूद, जिला—खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम —सोनपुरा, प.ह.न.—25, तहसील —हरसूद, जिला — खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला— नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —सोनपुरा, प.ह.न.—25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			257	0.009
				0.002
			256/3	0.005
			256/1	0.002
			250/1	0.001
			250/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —सोनपुरा, प.ह.न.—25,	215/1/1	0.009
			214/	0.009
			216/2	0.001
			217/2	0.004
			217/1	0.004
			218	0.010
			225/2	0.002
				0.005
			220/6	0.001
			220/4	0.003
			220/3	0.004
			221/2	0.004
			221/3	0.003
			111/1	0.002
			50/2	0.007
			58	0.004
			59/2/1	0.001
			59/2/2	0.001
			59/2/3	0.002
			59/1	0.005
			60	0.006
			43	0.001
			38	0.002
			37	0.002
			36	0.002
			35	0.010
योग निजी भूमि			30	0.124
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —सोनपुरा, प.ह.न.—25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			238	0.001
			256/4	0.002
			256/5	0.001
			253	0.001
			250/4	0.009
			232	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —सोनपुरा, प.ह.न.—25,	110/2	0.003
			110/3	0.004
			108	0.001
			50/3	0.001
			47	0.002
योग शासकीय भूमि			11	0.026
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			41	0.150

A

प. क्र. 1785-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक— ००७२/अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील— हरसूद, जिला—खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम —रेवापुर, प.ह.न.—25, तहसील —हरसूद, जिला — खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला— नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —रेवापुर, प.ह.न.—25,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			318/1	0.005 0.008
			317	0.008 0.001
			188	0.015
			194	0.018



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.-25	316/1	0.001
			189	0.006
			190	0.007
			166/2	0.020
			192/1	0.002
				0.004
			193	0.001
			196/2	0.003
			196/1	0.001
			253/4	0.004
			198/1	0.010
			253/3	0.001
			253/5	0.001
			237/4	0.002
			237/1	0.006
			235/1	0.001
			236/3	0.003
			235/4	0.005
			235/3	0.009
			238	0.009
			239/2	0.002
			239/1	0.006
			242	0.007
			232	0.001
			231	0.005
			230	0.007
			229/2	0.003
			229/1	0.006
			228	0.004
			225	0.004
			162/1	0.001
			162/3	0.019
			163/2	0.016
			163/1	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)			
1	2	3	4	5			
			164/1	0.007			
			167/5	0.009			
				0.003			
			167/4	0.001			
			166/1	0.010			
			166/3	0.001			
			184	0.023			
			318/2	0.008			
			319/1	0.018			
			83	0.007			
			84	0.003			
			82/4	0.004			
			81/2	0.010			
			80/2/2	0.007			
			80/1/2	0.005			
			79/2	0.006			
			79/1	0.005			
			86/2	0.003			
						86/3	0.001
							0.005
86/4	0.002						
87	0.004						
88/4	0.004						
103/4	0.001						
103/3	0.003						
103/2	0.002						
297/1	0.010						
297/2/2	0.012						
297/2/1	0.003						
297/6	0.012						
योग निजी भूमि			65	0.437			
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.-25	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-				
			197	0.001			
			211	0.001			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —रेवापुर, प.ह.न.—25	183	0.001
			165	0.001
				0.001
			297/8	0.006
			294/2	0.001
			280	0.010
			274	0.006
			278/2	0.001
			283	0.002
योग शासकीय भूमि			10	0.031
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			75	0.468

प. क्र. 1788-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 0069 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है शपथ दिये के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			522/3	0.003
			522/2/1	0.007
			522/1	0.005
			521/2	0.002
			518/4/2	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बरुड़ माल, प.ह.न.-39,	518/3	0.001
			518/1/2	0.006
			518/2/1/2	0.001
			519	0.009
				0.008
			513/2/1	0.003
				0.001
			513/2/2	0.007
			174/3	0.007
			174/2	0.002
			73/1	0.005
			155/1	0.003
			153/1	0.010
			153/3	0.002
			150/1	0.003
			150/2	0.003
			148/1	0.002
			148/2	0.003
			147/2	0.004
			146/2	0.004
			120/2	0.005
				0.002
			145/1	0.004
			145/2	0.004
			141/3	0.005
			141/2	0.005
			141/1	0.004
			140/2	0.004
			140/1	0.003
			138	0.004
			137/8/2	0.004
			121	0.003
			122	0.001
			120/1	0.007
			119/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			119/2	0.002
			119/3	0.002
			118/2/1	0.002
			118/1/1	0.002
			118/1/2	0.002
			117/2	0.006
			117/1	0.004
			116/4	0.002
योग निजी भूमि			46	0.181
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बरुड़ माल, प.ह.न.—39,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			523	0.001
			181	0.009
			184	0.013
			182	0.011
			180	0.008
				0.022
				0.006
			179	0.005
			178	0.005
			177	0.004
			175	0.001
				0.002
			276	0.002
			169	0.001
			164	0.001
			166/1	0.006
			166/3	0.013
			166/2	0.003
			158	0.003
				0.001
			73/9	0.004
			73/12	0.012
			96	0.001
			174/4	0.008
			170	0.001
			165/2	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बरुड़ माल, प.ह.न.—39	163/3	0.010
			159/3	0.010
			159/2	0.001
			159/1	0.010
			71	0.005
			74/8	0.005
			74/7	0.007
			74/6	0.004
			74/5	0.003
			74/4	0.009
			74/3	0.005
			75/2	0.004
			77	0.001
			68	0.020
			67	0.015
				0.005
			60	0.002
			55	0.009
			54/1	0.003
			54/2	0.003
			54/3	0.004
			57	0.006
			36	0.001
			37/3	0.021
			37/2	0.003
			38/3	0.009
			34/1	0.011
			32	0.002
			31/4	0.006
			31/5	0.001
			31/2	0.007
			29/1	0.012
			26/1	0.006
			25/1	0.005
			14	0.001
			8/2	0.002
			8/4	0.002
			8/3	0.005
			11/5	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बरुड़ माल, प.ह.न.—39	11/2	0.002
			11/4	0.001
			3	0.002
			1/2	0.010
			136	0.001
योग शासकीय भूमि			65	0.411
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			111	0.592



प. क्र. 1791-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००७४ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			239/2	0.004
			239/1	0.010
			238/1	0.005
			242	0.002
			238/2	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.—34,	237/1	0.003
			236/3	0.005
			243	0.007
			235/1	0.015
			248	0.001
			250/7	0.002
			250/4	0.009
			251/1	0.001
			250/6/1	0.001
			250/6/2	0.011
			250/2	0.008
			250/5	0.008
			252/1/1	0.003
			252/1/2	0.006
			252/7	0.001
			252/3	0.014
			252/2	0.015
			226/1	0.024
			223/2	0.001
			223/1	0.010
			223/3	0.013
			223/4	0.010
			223/5	0.006
			219	0.003
			208/1	0.026
			123/1	0.024
			4/1/2	0.025
			4/3	0.004
			4/4	0.020
			2	0.024
				0.009
			15/2	0.015
			15/1	0.010
			16/3	0.017
योग निजी भूमि			38	0.376

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.—34,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			240	0.001
			244	0.001
			218	0.001
			216	0.003
			209/1	0.005
			173/2	0.001
			212	0.003
			3	0.001
योग शासकीय भूमि			08	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			46	0.392

A

प. क्र. 1794-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ७७७। /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			168	0.005
			167/2/2	0.002
			167/8	0.006
			167/7	0.002
			167/3	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बैलवाड़ी, प.ह.न.—24,	167/4	0.009
			166/3	0.007
			166/4	0.008
			165/1	0.003
			165/4	0.005
			165/2	0.004
			164/4	0.005
			164/7	0.004
			163	0.016
			35/3	0.005
			35/2	0.003
				0.001
			35/1	0.001
			34/2	0.002
			37/1/1	0.006
			37/1/2	0.001
			37/2	0.003
			38	0.006
			25	0.002
			26	0.009
			13	0.007
			14	0.008
			12/2	0.005
			12/1	0.002
			9/1	0.005
11	0.007			
योग निजी भूमि			30	0.151

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बैलवाड़ी, प.ह.न.—24,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			178	0.001
			167/5	0.005
			24	0.001
			10	0.001
			8	0.001
			1	0.002
योग शासकीय भूमि			06	0.011
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			36	0.162

प. क्र. 1797-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ०1०2 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इसपरिवर्तित दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3	0.019 0.004
			4	0.017 0.004
			6	0.020 0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,	7/3	0.008 0.004
			7/2	0.007 0.001
			7/1	0.009 0.002
			9/1	0.004
			8/3	0.002
			8/2	0.002
			8/1	0.003
			10/2	0.003
			10/3	0.004
			11/1	0.003
			11/2	0.003
			12/1	0.003
			12/2	0.002
			15/2	0.004
			16/2	0.006
			17/1/2	0.002
			17/2	0.006
			17/3	0.002
			17/4	0.001
			28/1	0.009
			28/3	0.001 0.007
			28/2	0.010
			23	0.007
			75/3	0.003
			75/2	0.003
			76/4	0.010
			76/1	0.011
			76/2/1	0.003
			76/2/2	0.002
			77/1	0.010



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —बहेड़ी, प.ह.न.—20,	77/2	0.009
			137/1	0.003
			136/1	0.021
			135/2	0.008
			135/1	0.012
			129/4	0.011
			131/5	0.013
			125/3	0.002
				0.003
			122/2	0.010
			122/3	0.010
			121/1	0.023
			116	0.007
			115/2	0.003
			114/2	0.006
			113/2	0.007
			173/1/2	0.001
			173/4	0.005
				0.001
			173/2	0.009
			174/3	0.003
			173/3	0.004
			174/2	0.012
			177/1	0.010
			177/2	0.005
			178/2	0.005
			178/1	0.004
			176/1	0.004
			181/1	0.008
			181/2	0.001
				0.007
			183/3	0.004
योग निजी भूमि			62	0.455

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.011
			27	0.001
			22	0.001
			139	0.001
			126	0.001
			180	0.001
			182	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		69	0.472	

प. क्र. 1800-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००१७ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			81/9	0.028 0.020 0.013
			81/3	0.053 0.021
			81/4	0.055

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मुगल रैय्यत, प.ह.न.—22,	82/1	0.010
				0.029
			161/3	0.084
			161/1	0.034
			237/1	0.021
			157	0.012
			240/1	0.037
			240/3	0.012
			81/1	0.004
				0.014
			83/1	0.014
			83/2	0.024
			131/1	0.069
			132/1	0.027
			132/2	0.035
			155/5	0.013
			155/8	0.020
			154/6	0.068
			154/8	0.003
				0.025
			154/9	0.028
			154/10	0.011
			81/2	0.024
			119/1	0.027
			120/1	0.003
			66/1	0.001
			106/1	0.023
			64/4	0.007
			63	0.016
			56/1	0.004
			59/1	0.006
				0.010
				0.003
			58/1	0.005
				0.003
			58/2	0.005
योग निजी भूमि			33.	0.921

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —मुगल रैयत, प.ह.न.—22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			168	0.003
				0.003
				0.002
			158	0.005
				0.006
			240/4	0.008
			240/2	0.003
			241	0.003
			81/7	0.016
			81/8	0.019
			82/7	0.036
			151	0.003
			82/4	0.022
			82/5	0.020
			89	0.013
			90	0.026
			95	0.003
			97	0.033
			98/3	0.012
				0.025
				0.007
			96	0.015
			119/2	0.009
			118	0.041
			98/2	0.013
			101	0.014
			104	0.001
			103	0.010
			66/2	0.015
			65	0.001
			56/3	0.002
			56/2	0.002
			57	0.001
			59/2	0.007
			59/3	0.002
			60	0.001
योग शासकीय भूमि			31	0.402
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			64	1.323

प. क्र. 1803-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक-0103 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			389/2	0.001
			388/1	0.004
			388/3	0.005
			388/2	0.014
			387/1	0.015

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —इगरिया, प.ह.न.—18,	420	0.021
			419/1/1	0.008
			419/1/2	0.004
			419/2	0.006
			419/3	0.002
				0.001
			419/4	0.001
				0.001
			431	0.008
				0.006
			437/2	0.013
			427/1	0.001
			436/3	0.015
			436/2	0.014
			436/1	0.012
			437/1	0.010
			430/1	0.001
			423	0.001
			422/3	0.003
			422/2	0.003
			422/1	0.009
				0.009
	381	0.015		
योग निजी भूमि			25	0.203
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —इगरिया, प.ह.न.—18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			421	0.001
				0.001
			434	0.001
			456/2	0.012
			456/1	0.012
			455	0.007
योग शासकीय भूमि			05	0.034
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			30	0.237

प. क्र. 1806-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 01021 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			27/1	0.006
			26/1	0.027
			25/5	0.019
			25/6	0.005
			25/4	0.005



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	25/2	0.003
			24/2	0.019
			23/1/2	0.012
			22/3	0.003
			22/1	0.004
			23/1/1	0.012
			23/4	0.001
			19/5	0.001
			18/3	0.003
			18/2	0.007
			19/4	0.010
			17/4	0.021
			78/3	0.017
			78/4	0.026
			82/1	0.020
			80/1	0.050
			82/2	0.012
			81/3	0.011
			199/2	0.017
			199/3	0.007
			200	0.014
			177/3	0.025
			177/1/1/1	0.002
			177/1/2	0.019
			177/1/1/2	0.006
			176/4	0.009
			176/1	0.013
			170/4	0.017
			122/3	0.011
			121/2	0.003
			120/7	0.010
			123/1	0.009
				0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
			124/3	0.013
			115/4	0.014
			115/7	0.007
			113	0.007
			112/3	0.020
			111/3	0.012
			170/3	0.001
			273/1	0.006
			272	0.018
			271	0.005
			287/3/2	0.007
				0.011
			273/2	0.001
			264/3	0.021
			264/4	0.004
			266/1/2	0.009
				0.009
				0.009
			265/1	0.040
			265/5	0.004
			290/1	0.026
			290/2	0.022
			292	0.022
			300	0.015
			301/1	0.008
			301/2	0.004
			266/1/1	0.004
			265/2	0.016
			265/3	0.004
			268	0.044
			287/2	0.034
			285/2	0.012
			285/3	0.001
			17/2	0.009
			267/1	0.002
योग निजी भूमि			69	0.940

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			27/3	0.002
			21	0.001
				0.001
			20	0.002
			43	0.001
			171/1	0.001
			286	0.002
				0.001
			259	0.001
			260	0.002
			291	0.002
			299	0.001
योग शासकीय भूमि			10	0.017
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			79	0.957

प. क्र. 1809-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ०१०१ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कास दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			181/1	0.055
			181/2	0.060
			177/1	0.043
			175/4	0.052
			120/1/2	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगाड़खेड़ी, प.ह.न.—21,	120/1/3	0.030
			121	0.046
			123/1	0.026
			123/4	0.025
			128/1	0.032
			86/4	0.051
			31/1	0.021 0.010 0.014
			25/1	0.015
			24/2	0.001
			22/1	0.006
			32	0.033
			35/1	0.004
			35/2	0.017
			35/3	0.017
			35/12	0.014
			35/4	0.011
			36/2/3	0.006
			36/2/4	0.014
			43/1	0.009
			41/1	0.010
			40/1	0.010
			351/1	0.010
			352	0.043
			345/1	0.011
			360/5	0.001
			360/4	0.017
			369/2	0.029
			369/1	0.009
			363/1	0.005
			368	0.051 0.025
			366/2	0.020
			385/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगड़खेड़ी, प.ह.न.—21,	394/2	0.011
			393/4	0.017
			393/2	0.004
			392/5	0.007
			392/4	0.008
			392/1	0.005
			390	0.002
			403	0.011
			401	0.014
			402	0.002
			391	0.001
			202/1	0.048
योग निजी भूमि			49	1.038
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगड़खेड़ी, प.ह.न.—21,,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			236	0.014
			210/4	0.003
			211/1	0.053
			210/2	0.002
			210/3	0.015
			209	0.048
			206/1	0.013
			192/2	0.003
			194	0.011
			183	0.003
			176	0.006
			128/2	0.030
			129	0.011
			98	0.003
			86/3	0.006
			86/2	0.040
			64	0.006
			25/3	0.005
			24/3	0.016
			22/2	0.010
			21	0.025
			1	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —दगड़खेड़ी, प.ह.न.—21,	34	0.002
			35/11	0.009
			345/4	0.003
			345/5	0.005
			346	0.004
			355	0.002
			385/4	0.048
			396	0.004
				0.001
				0.001
			395	0.003
योग शासकीय भूमि			31	0.408
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			79	1.446

प. क्र. 1812-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**कमांक- ०१०७ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			26	0.012
			28/3	0.012
			28/2	0.009
			31/3	0.002
			31/1	0.021



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —धनोरा, प.ह.न.—19,	119/3	0.002
			119/1	0.014
			120/1	0.010
			129	0.005
			249/1	0.025
			249/2	0.010
			248/1/1	0.029
			248/1/2	0.015
			246/1	0.002
			246/7	0.017
			246/5	0.012
			246/2	0.011
			246/3	0.009
			246/6	0.017
			246/4	0.010
			221/4	0.013
			221/3	0.016
			221/2	0.003
			196	0.016
			183/4	0.018
			183/3	0.014
योग निजी भूमि			26	0.324
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —धनोरा, प.ह.न.—19,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			14/2	0.004
			12/1	0.027
			16/2	0.002
			1/3	0.001
			252	0.014
			119/2	0.016
				0.002
			245	0.004
			222	0.003
			220	0.010
			223	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —धनोरा, प.ह.न.—19,	224	0.001
			235	0.002
			236	0.014
			234	0.006
			233	0.046
			232	0.005
			231	0.007
			197	0.003
			195	0.005
			194	0.005
			186	0.004
			185	0.011
			184	0.002
योग शासकीय भूमि			23	0.214
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			49	0.538

N

प. क्र. 1854-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००११ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			239/1	0.003
			233/3	0.004
			228/3/2	0.004 0.003 0.002
			228/1/4	0.005 0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —पिपलानी, प.ह.न.—18,	228/1/2	0.005
			226/3	0.006
			228/1/3	0.006
			228/1/5	0.002
			228/1/1	0.005
			208	0.008
			210	0.009
			205	0.013
			204/2	0.009
			203/1	0.001
			203/2	0.005
			202	0.003
			201/2	0.003
			201/4	0.001
			19/1	0.004
			20/2	0.008
			20/5	0.001
			31	0.008
			42	0.005
			25/1	0.005
			28	0.009
			43/2/2	0.001
			457/1	0.005
			455	0.002
			456	0.002
			253/3	0.003
			254	0.003
			255/1	0.002
			256/2	0.005
			256/1	0.003
			योग निजी भूमि	

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —पिपलानी, प.ह.न.—18,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12/1	0.026
			236	0.003
			235	0.001
			232	0.001
			227	0.001
			220	0.001
			36	0.001
			454	0.001
			255/2	0.002
			259	0.001
			281	0.002
			280	0.003
			277	0.003
			298	0.006
			299	0.001
			359	0.003
			400	0.001
			368	0.003
			366	0.001
			367	0.001
			382/2	0.012
योग शासकीय भूमि			21	0.074
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			55	0.249

प. क्र. 1818-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००१४ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

ज़िला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3/1	0.003
			15/3	0.051
			44/1	0.005
			48/1	0.011
			78/3	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	78/1	0.008
			78/2	0.010
			77/1	0.021
			85/10	0.003
			85/7	0.039
			141/1	0.019
			163/6	0.015
			230/2	0.020
			162/8	0.001
			162/6/2	0.001
			204/4/1	0.011
			224/1	0.023
			228/5	0.013
			228/1	0.013
				0.003
				0.003
				0.008
			228/2	0.020
				0.011
			229/1	0.006
				0.009
			226/3	0.005
				0.006
			229/2	0.007
			229/3	0.009
			236/1	0.010
			236/2	0.005
			236/3	0.008
			236/4	0.001
			242/2/1	0.004
			242/2/2	0.004
			242/3	0.009
			242/4	0.006
			242/5	0.006
			230/3	0.017
			230/1	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —चिच रैय्यत, प.ह.न.—20,	233/5	0.001
			233/3	0.032
			234/1	0.014
			158/8	0.005
			158/7	0.036
			158/6	0.002
				0.002
			158/10	0.006
				0.006
			158/4	0.014
			158/2	0.023
			154/2	0.015
154/1	0.004			
योग निजी भूमि			46	0.606
खण्डवा	हरसूद	ग्राम —चिच रैय्यत, प.ह.न.—20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.007
			2	0.067
			28	0.002
			36/2	0.064
			46	0.013
			47	0.017
			44/2	0.017
			48/2	0.013
			83	0.001
			85/6	0.039
			98	0.002
			99/2	0.019
			99/1	0.020
			100	0.004
			74	0.002
			3/2	0.044
			133/1	0.004
			141/7	0.003
			143/1	0.002
			146	0.012
			147/2	0.020



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम –चिच रैय्यत, प.ह.न.-20,	136/2	0.004
			163/2	0.032
			195/1	0.002
			207/2	0.001
			224/2	0.010
			223/2	0.010
			222	0.006
			221/2	0.017
			243	0.002
				0.005
			225/2	0.003
			225/1	0.002
			228/4	0.006
			243	0.002
			195/2	0.002
			153	0.002
				0.001
योग शासकीय भूमि			36	0.479
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			82	1.085

प. क्र. 1821-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0165 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			67	0.030
			68	0.014
			124	0.016 0.004 0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,	120/1	0.002
			165	0.004
			164	0.011
			163/3	0.003
			162	0.001
			173/3	0.006
			173/1	0.009
			174/1	0.004
			175/1	0.020
			175/3	0.015
			157/3	0.001
			175/2/1	0.003
			156	0.013
			153/1	0.007
			152	0.004
			151/2	0.024
			151/1	0.006
			280	0.012
			150	0.013
			281/1	0.001
			283/1	0.008
			283/2	0.011
			284/2	0.001
			292	0.008
			293/2	0.009
			294/5	0.008
			120/2	0.009
			119/1	0.005
			119/2	0.006
			161/6	0.004
			159/5	0.001
			159/1	0.003
			158/1	0.010
			158/3	0.001
				0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— दमदमा, प.ह.नं.— 30	158/4	0.010
			136	0.015
			139	0.009
योग निजी भूमि			39	0.350
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— दमदमा, प.ह.नं.— 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			60	0.001
			70	0.002
			127	0.001
				0.001
			173/2	0.001
			155	0.013
			148	0.002
			282	0.004
			285	0.002
			291	0.004
131	0.001			
योग शासकीय भूमि			10	0.032
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			49	0.382

प. क्र. 1824-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0092 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) क अधान अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			15/1	0.006
			310/1	0.004
			311/1	0.001
			311/2	0.008
			324/3	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— निशानिया, प.ह.नं.— 36,	324/1/2	0.006
			323	0.004
			321/1	0.019
			318	0.026
			345	0.007
				0.014
			344/2	0.014
			343	0.011
			342	0.003
				0.008
			355/4	0.007
			355/3	0.011
			355/2	0.001
			370/2/1	0.006
			370/3	0.006
368/2	0.015			
423/1	0.006			
योग निजी भूमि			20	0.191
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— निशानिया, प.ह.नं.— 36,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			326	0.001
			377	0.001
			395	0.010
योग शासकीय भूमि			03	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			23	0.203

प. क्र. 1827-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००९) /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			23	0.003
			24	0.006
			26	0.008
			47/1	0.010
			221	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31	222	0.004
			224/1	0.002
			224/2	0.006
			226	0.002
			229	0.010
			233	0.008
			232/2	0.004
			9/1	0.010
			10/3	0.010
			10/1	0.006
				0.005
			13/1/1	0.003
			13/1/2	0.001
			13/5	0.006
			13/2/1	0.003
			13/2/2	0.001
			13/7	0.008
			13/6	0.002
			8/2	0.004
			198	0.006
			193	0.003
			192/1	0.017
			220/1	0.005
			395	0.007
योग निजी भूमि			28	0.165
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामजीपुरा, प.ह.नं.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109/2	0.004
			225	0.002
			228	0.001
			230	0.001
			3	0.001
401	0.004			
योग शासकीय भूमि			06	0.013
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			34	0.178



प. क्र. 1830-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

कमांक- ००९३ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27 , तहसील-हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			35/4	0.100
			59/1/1	0.065
			66	0.032
			64/4	0.053
			134/5	0.008

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बम्हदड़ माल, प.ह.नं.— 27	134/4	0.007
			136/2	0.040
			179/4	0.045
			179/3	0.057
			174/1/2	0.018
			174/1/1	0.011
			174/2	0.032
			175	0.076
			168	0.009
			167/2	0.029
			167/1	0.017
			166/1/1	0.031
			166/2	0.008
			237	0.036
योग निजी भूमि			19	0.674
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बम्हदड़ माल, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			34	0.003
			122	0.020
योग शासकीय भूमि			02	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			21	0.697

K

प. क्र. 1833-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००८३ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी रैय्यत, प.ह.नं.- 28, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) क अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हाती है इक्कास दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— पलानी रैय्यत, प.ह.नं.— 28,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			111/4	0.003
			111/3	0.003
			111/5	0.004
			111/1	0.003
योग निजी भूमि			04	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी रैय्यत, प.ह.नं.- 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109/2	0.001
योग शासकीय भूमि			01	0.001
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			05	0.014

प. क्र. 1836-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००१७ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			1	0.007 0.004
			2/1/1/2	0.004
			2/1/2/3	0.005
			191/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— डोटखेड़ा, प.ह.नं.— 38	203/2	0.006
			203/3	0.006
योग निजी भूमि			06	0.035
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— डोटखेड़ा, प.ह.नं.— 38	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			15	0.018
			191/1	0.025
	0.018			
योग शासकीय भूमि			02	0.061
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			08	0.096

प. क्र. 1839-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ००४२ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 का उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			15/1	0.019
			3/1	0.013
			7/4/2	0.009
			7/5	0.007
			6	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32,	5/2	0.002
			410	0.016
			28/1	0.003
			28/2	0.012
				0.006
			29/2	0.023
			263/2	0.006
			263/2	0.006
			264/1	0.002
			264/2	0.002
			265/1	0.005
			265/2	0.001
				0.001
			272/1	0.008
			275/3	0.007
			175/2	0.001
			287	0.001
			286	0.001
			284	0.008
			282/1	0.006
			57/4	0.008
			52/2	0.001
			56	0.001
			52/1	0.010
			53/2	0.001
			53/3	0.014
			49	0.007
			41/1	0.002
			41/2	0.005
			42	0.005
			46/4/1	0.009
			128/1	0.002
			205	0.010
			204/2	0.002
			204/1	0.003
				0.008
			196/1	0.009
			196/2	0.012
			181/2	0.008



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32	178	0.008
			177/2	0.007
			176	0.002
			175/1	0.002
			175/2	0.001
			174/2	0.001
			174/1	0.002
			173/5	0.003
			173/1	0.004
			57/1	0.017
			59/1	0.019
			60/1	0.014
			60/2	0.001
			67/4	0.014
			74/3	0.001
			74/2	0.009
			70/2	0.002
				0.006
			69/1	0.013
				0.014
			69/2	0.021
			69/3	0.003
			85/3	0.023
			85/1	0.001
			98/1	0.014
			97/1	0.011
			97/2	0.003
			96/1	0.005
			96/3	0.007
			96/2	0.006
				0.002
			95	0.005
				0.002
			94	0.005
			112	0.006
			67/6	0.005
			67/3	0.008
			67/5	0.007
			68	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32	65/2	0.004
			65/1	0.006
			89/1	0.006
			89/2	0.012
			96/2	0.005
			111/1	0.005
			108	0.005
			109	0.008
			116/1	0.019
			116/3	0.012
			116/2	0.006
योग निजी भूमि			87	0.661
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोरीसराय, प.ह.नं.— 32,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			16	0.002
			2	0.001
			4	0.001
			27	0.002
			266	0.001
			279	0.001
			45	0.007
			44	0.012
			54	0.001
			101	0.001
			202	0.001
			201	0.002
			200	0.001
			58	0.001
			83	0.001
			90	0.001
			101	0.001
			115	0.001
योग शासकीय भूमि			18	0.038
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			105	0.699

प. क्र. 1842-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ००३५ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			209/2	0.007
			209/1	0.008
			210/1	0.001
			208/4	0.019
			208/3	0.012

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28	221	0.002 0.009 0.001
			224	0.001 0.006
			220	0.004
			215/5	0.007
			215/3	0.005
			257/1	0.002 0.002
			258/1	0.004
			259/2/1	0.006
			259/1	0.004
			262/4	0.007
			262/1	0.001
			262/3	0.009
			266/1	0.006
			266/2	0.003
			268/3	0.001
			225	0.003
			223/1	0.005
			223/3	0.004
			232	0.001
			247	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— पलानी माल, प.ह.नं.— 28	248	0.002
			249/2	0.013
			249/3	0.007
			243	0.008
योग निजी भूमि			29	0.172
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— पलानी माल, प.ह.नं.— 28	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			207/1	0.001
			211/1	0.001
			231/1	0.001
			266/4	0.002
			266/5	0.005
			250	0.001
योग शासकीय भूमि			06	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			35	0.184

प. क्र. 1845-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- ००४९ /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			27/3	0.002
			27/1	0.002
			26/3	0.006
			26/2	0.007
			26/1	0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	25/1	0.007
			25/3	0.004
			22/1	0.003
				0.003
			24/2	0.010
			20/2	0.011
			20/1	0.011
			56	0.033
			227/5	0.005
			230/1	0.004
			230/2	0.009
			229	0.009
			228/2	0.004
			228/4	0.001
			228/1	0.008
			233/1	0.002
			219/2	0.006
			236/1	0.001
			235/2	0.008
			235/1	0.008
			235/3	0.003
			262/2	0.002
				0.008
			268/3	0.005
			336/5	0.002
			339/1	0.008
			333/1	0.002
			333/2	0.002
			333/3	0.002
			333/4	0.004
			331	0.006
			330	0.006
			328/2	0.015
			261	0.008
			265/1	0.010
			268/1	0.001
			268/2	0.013
			288/1	0.014
			288/2	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	287/1/1	0.002
			287/1/2	0.009
			286	0.008
			315/1	0.012
			312/5	0.010
			359/2	0.005
			337	0.011
			332	0.009
			338/4	0.003
			338/1	0.003
			338/2	0.004
			338/3	0.005
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- तोरन्या रै., प.ह.नं.- 34	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			1	0.004
			50	0.001
			52	0.005
			57	0.001
			234	0.001
			256	0.001
			263	0.001
			276	0.001
			314	0.001
			316	0.001
			329	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			65	0.380



प. क्र. 1848-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ००९५ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			197	0.023
			194	0.004
			193/2/1	0.007
			193/2/2	0.007
			193/2/3	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छिपीपुरा, प.ह.नं.— 33	193/1/2	0.004
			192/1/2	0.012
			189/2	0.003
			190/3	0.004
			190/2	0.003
			191/1	0.003
				0.001
			191/2	0.006
			178/2	0.006
			178/1	0.007
			177/3	0.003
			174	0.001
			172/1	0.002
			172/2	0.008
			173/2	0.010
			169/1	0.005
			169/2	0.011
			1	0.006
			3/5/2	0.005
			3/6/1	0.001
योग निजी भूमि			24	0.145
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छिपीपुरा, प.ह.नं.— 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			196	0.005
			195	0.001
			175	0.001
			2	0.001
			135	0.001
योग शासकीय भूमि			05	0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			29	0.154

प. क्र. 1851-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0096 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			8	0.027
			9/3	0.017
			22/1	0.016
			172	0.022
			171/4	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27	173/1	0.032
				0.008
			173/2	0.009
			182/1	0.010
			181/1/1	0.002
			174/2	0.008
			174/1	0.022
			175/2	0.020
			175/3	0.015
			175/1	0.027
			162/2	0.002
			162/1	0.014
			159/1	0.031
			138	0.082
			270	0.008
			135/1	0.023
			135/2	0.007
			288/1	0.010
			288/2/2	0.041
			295/1	0.033
			295/10	0.003
			295/2	0.003
			291	0.020
			292/1	0.006
			292/3	0.031
			292/4	0.026
			185	0.008
			187/1	0.012
			188/2	0.010
			188/1	0.010
			223	0.011
			224	0.005
			187/6	0.001
			63/4	0.002
			63/3	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— शाहपुरा माल, प.ह.नं.— 27	63/5	0.007
			63/6	0.009
			61/3	0.001
			61/6	0.019
			61/5	0.008
			61/2	0.001
			58/2	0.010
			58/1	0.011
			52/3	0.004
			52/2	0.004
			52/1/1	0.004
			52/1/2	0.013
			52/1/3	0.003
			171/2	0.008
			171/1	0.007
			166	0.044
			155/1	0.009
			74/4	0.009
			74/3	0.005
			75	0.010
			78/1	0.024
			78/4	0.009
			78/3/1	0.008
			78/3/2	0.002
			103	0.003
			98	0.001
			104	0.006
			99	0.004
			105	0.001
			100	0.006
			101/3	0.006
			101/4	0.014
योग निजी भूमि			71	0.917

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— शाहपुरा माल, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12/1	0.026
			22/2	0.009
			21	0.002
			20	0.017
			18	0.002
			17	0.015
			13/2	0.003
			13/1	0.030
			13/1	0.029
			13/1	0.046
			13/1	0.016
			163	0.002
			160	0.003
			269	0.002
			137	0.004
			271	0.005
			287	0.010
			293	0.002
			190	0.001
			184	0.001
			72	0.001
			86	0.001
			169	0.001
			167	0.007
			165	0.001
			154	0.001
			110	0.002
			111	0.033
106	0.005			
योग शासकीय भूमि			29	0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			100	1.194

प. क्र. 1854-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 0084 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.नं.- 35, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.नं.- 35,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			348/3	0.015
			356/1	0.014
			356/2	0.011
			356/3	0.001
			365/1	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- रामपुरी रे., प.ह.नं.- 35,	366/7	0.006
			355	0.004
			354/1	0.009
				0.003
				0.002
				0.002
			354/2	0.009
			354/3	0.021
				0.004
				0.017
			367/2	0.003
			367/1	0.008
			371/1/2	0.004
			371/2	0.003
			370	0.007
			372/1	0.004
			373/2/1	0.002
			373/1	0.002
			374/2	0.003
			374/3	0.001
			375/2	0.003
			143/2	0.006
			374/1	0.001
			375/1	0.002
			329/5	0.004
			329/4	0.003
			329/3	0.003
			329/2/1	0.001
			376/2	0.002
			376/1	0.002
				0.001
			377	0.004
			326/1	0.003
			378/1	0.001
			385/5	0.004
				0.004
			385/4	0.009
			386	0.005
			342/3	0.006



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— रामपुरी रै., प.ह.नं.— 35,	342/1	0.004
			343	0.009
			342/2/1	0.003
			342/2/2	0.003
			341/4/1/1	0.003
			151/2/1	0.007
			150/1	0.005
			145/2	0.006
			145/3	0.010
			143/1	0.003
			159/2	0.003
			159/1	0.001
			160	0.007
			161	0.005
				0.007
			162/2	0.003
			162/1	0.003
			166/2	0.006
			167	0.009
			261/1/1	0.001
			260/1	0.014
			233	0.005
			234/3	0.001
			234/1	0.003
				0.001
			236/1	0.002
			236/2	0.005
239	0.011			
योग निजी भूमि			63	0.365
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— रामपुरी रै., प.ह.नं.— 35,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			349	0.001
			346	0.020
			352	0.002
				0.001
			362	0.030
357	0.029			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— रामपुरी रै., प.ह.नं.— 35	395	0.001
			353	0.008
			258	0.001
			238	0.003
योग शासकीय भूमि			09	0.096
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			72	0.461

प. क्र. 1857-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 6081** /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22, तहसील-हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			340/1	0.054
			311/1	0.015
			312/1	0.047
			312/2	0.030
			278/1	0.035

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.— 22	278/2	0.005
			278/3	0.006
			279/2	0.008
			279/3	0.005
			287	0.016
			284	0.076
			283/1	0.015
			282/1	0.006
			282/2	0.047
			211/1/2	0.023
			211/1/1/2	0.012
			216/3	0.058
			211/1/1/1	0.062
			216/4	0.012
			216/1	0.004
			216/10	0.016
			214/3	0.009
			219/2/1	0.003
			219/2/2	0.021
			57/1	0.033
			234	0.012
			232/3	0.065
			232/1	0.046
			232/2	0.031
			236	0.082
योग निजी भूमि			30	0.854
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.— 22	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			151/1	0.014
			151/2	0.012
			339	0.030
			340/2	0.016
			338/1	0.009
			326	0.006
330	0.060			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.— 22	331	0.008
			309/2	0.023
			309/3	0.039
			314	0.112
			273	0.002
			280	0.004
			208	0.001
			216/6	0.003
			216/5	0.001
			217	0.021
			215/3	0.031
			219/5	0.013
			58/4	0.005
			57/2	0.073
			57/3	0.007
			3	0.001
			235	0.001
			233	0.001
योग शासकीय भूमि			25	0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			55	1.347

प. क्र. 1860-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 6080 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है शपथग्राहक के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			9/1	0.004
			9/2	0.028
			9/4	0.008
			62	0.011 0.017

निर्देश

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	5/3	0.023
			9/3	0.006
			140/2	0.001
			140/6	0.008
			140/9	0.004
			140/7	0.002
			140/5	0.005
			140/8	0.005
			140/1	0.011
			139	0.031
			209/1	0.004
			137/2	0.002
			137/1	0.018
			163/3	0.010
			163/4	0.005
			163/2	0.004
			163/1	0.009
			162/5	0.016
			162/1	0.004
			162/3	0.006
			167/3	0.007
				0.017
			170/1/1	0.005
				0.007
				0.016
			169/2	0.021
			179/1	0.016
			179/3	0.018
			179/2/1	0.012
			179/2/2	0.011
			179/2/3	0.011
			197/1/2	0.012
			181	0.020
				0.018
			183/1	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	183/2	0.009
			184	0.004
			170/1/2	0.002
				0.009
			170/2	0.004
			171	0.005
			176	0.011
			173/1	0.011
			169/1	0.022
			196/1	0.010
			197/1/1	0.002
			206/3	0.012
			206/1	0.012
			209/2	0.003
			209/3	0.003
			210/1	0.004
			211/1	0.004
			423/3	0.016
			425/1	0.006
			431/3	0.012
			425/2	0.010
			432/1	0.017
			420/1	0.001
			406	0.024
			360	0.008
			408/1	0.001
			403/2	0.001
			405/2	0.004
				0.003
				0.005
			405/1	0.009
			404/2	0.004
			366	0.004
			365	0.003
			327/2	0.009



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	363	0.001
			362	0.005
			359/2	0.005
			361	0.005
			368/1	0.008
			327/4	0.005
			326/1	0.003
			326/2	0.003
				0.005
			320/1	0.010
			319/1	0.001
			320/4	0.010
			319/4	0.008
			404/2	0.004
			404/1	0.003
			400/3	0.002
			400/1	0.001
			400/2	0.004
			398/2	0.001
			398/3	0.003
			398/4	0.003
			392	0.002
			454/6	0.001
			454/1	0.001
			454/5	0.001
			454/7	0.003
			454/3	0.006
			456	0.005
			408/2	0.001
			461/2	0.006
			466	0.009
			470/2	0.003
योग निजी भूमि			98	0.828

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— धारुखेड़ी, प.ह.नं.— 33	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			12	0.001
			51	0.002
			160	0.002
			162/2	0.007
			166	0.001
			174	0.002
			193/1	0.001
			208	0.002
			212	0.001
			422/2	0.001
			357/1	0.001
			452	0.001
			465	0.001
योग शासकीय भूमि			13	0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			111	0.851

प. क्र. 1863-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 0113 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है उपयोग के अधिकार के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			301/5	0.009
			301/3	0.001
			308/1/2	0.002
			235/2	0.010
			235/1	0.007
				0.001

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छापाकुन्ड, प.ह.नं.— 30,	233	0.009
			232/2	0.008
			232/1	0.001
				0.005
				0.002
			229/1	0.005
			229/2	0.005
				0.001
			228	0.002
			107/1	0.007
			108	0.006
			114	0.001
			166	0.004
			165	0.003
			167	0.005
			168	0.003
योग निजी भूमि			18	0.097
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— छापाकुन्ड, प.ह.नं.— 30,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			272	0.002
			306	0.010
			307	0.001
			328	0.001
			247	0.003
			246	0.011
			245	0.001
			236	0.002
			99	0.001
			115	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			28	0.130

प. क्र. 1866-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

**क्रमांक- 6114 /अ-59/2022-23** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अर्जित अधिकारों राजपत्र में प्रकाशित होगी है इसकीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			2/3	0.006
			7/3/2	0.005
			7/3/1	0.003
			7/2/1	0.004
			5/3	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोथिया कलां, प.ह.नं.— 29	5/2/2	0.001
			5/1	0.005
			3/3	0.001
			5/2/1	0.001
योग निजी भूमि			09	0.031
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— बोथिया कलां, प.ह.नं.— 29	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			--	--
योग शासकीय भूमि			--	--
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			09	0.031

प. क्र. 1869-क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- ०११२ /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- सोनखेड़ी, प.ह.नं.- 31, तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म0प्र0) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- सोनखेड़ी, प.ह.नं.- 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			228/1	0.005
			197/1	0.001
			202	0.005
			196	0.015
			266/1	0.002

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	266/2	0.001
			225/1	0.001
			270	0.001
			272	0.003
			271	0.001
			395/1	0.008
			395/2	0.003
			394/2	0.012
			393/2	0.004
			391	0.007
			392/2	0.007
			392/3	0.001
			359	0.005
			364	0.001
			357	0.007
योग निजी भूमि			20	0.090
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			220	0.001
			260/1	0.019
				0.008
				0.007
			261	0.001
				0.001
			262	0.004
				0.001
			263	0.001
				0.001
			264	0.004
			268	0.001
			269	0.007
			396	0.012
360	0.003			
361	0.010			
356	0.011			
78	0.001			



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— सोनखेड़ी, प.ह.नं.— 31	355	0.007
			80	0.001
			79	0.019
			71	0.002
योग शासकीय भूमि			17	0.122
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			37	0.212

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

**राजस्व विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र.एफ-6-47-2022-सात-3.-नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्र.एफ-6-75-2019-शा. 3, दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद्वारा, राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है:-

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)
01	101	5710
02	101	5710

**परिशिष्ट-01**

क्र. (1)	खसरा नंबर (2)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)	कॉलम नंबर (03) के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में) (4)	चतुर्सीमा (5)
1.	101	5710	137.40	उत्तर - ग़ोवर साहब की संपत्ति दक्षिण - रोड पूर्व - मकान नं. 3 जो कि ईदगाह कोठी का अंश भाग है. पश्चिम- जीवनधारा अपार्टमेंट एवं खुली जगह
2.	101	5710	140.52	उत्तर - गंगवानी जी का मकान दक्षिण - रोड पूर्व - रास्ता पश्चिम- मकान नं.2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.****आयुष विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

क्र.-एफ-1-1-1-0002-2023-sec.1-उनसठ(Ayu).-मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. 404-139-2020-1-उनसठ, दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 33जी के तहत डॉ. राजकुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, संचालनालय, आयुष, भोपाल को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के खण्ड XVIII के नियम 162 के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त किया गया है.

2. राज्य शासन, डॉ. राजकुमार पटेल की नियुक्ति संबंधी उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. हिममत सिंह डाबर, जिला आयुष अधिकारी (वर्तमान में संचालनालय, आयुष में पदस्थ) को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**पंकज शर्मा, उपसचिव.**

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023

क्र. B-2159-दो-2-26-2010.—श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 से 9 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2023

क्र. A-1727-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 10 से 17 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1730-दो-2-51-2020.—श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 31 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. A-1755-दो-2-28-2022.—सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 20 से 27 मार्च 2023 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. B-2673-दो-2-68-2022.—श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 19 से 27 अप्रैल 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2675-दो-2-63-2022.—श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M)(J), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 9 अप्रैल

2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M)(J), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M)(J) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023

क्र. A-1481-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1483-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 23 से 25 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1485-दो-2-21-2019.—श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखन लाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1487-दो-2-27-2020.—श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1489-दो-3-21-2021.—श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1492-दो-2-35-2021.—श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1497-दो-2-32-2022.—श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 3 से 4 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. A-1499-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2123-दो-2-9-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 मार्च 2023 तक एक वर्ष पाँच माह की अवधि के लिए बाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

क्र. B-2125-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 6 मार्च 2023 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया गया है।
2. दिनांक 10 से 11 मार्च 2023 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 9 मार्च 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2132-दो-2-51-2015.—श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2136-दो-2-50-2015.—श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2139-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, ग्यारह दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2141-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश . . 240
- अर्द्धवेतन अवकाश . . 60

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

- (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
- (ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश

के एवज में नगद = ————— X 60  
भुगतान.

क्र. B-2161-दो-2-14-2015.—श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2020 से 21 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-2163-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 4 से 11 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2165-दो-2-62-2016.—श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:—

1. दिनांक 27 से 28 फरवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है।
2. दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2023

क्र. A-1559-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1561-दो-2-61-2021.—श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चंद्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. D-1706-दो-2-53-2022.—श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1708-दो-2-29-2020.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-1751-दो-2-27-2022.—श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को दिनांक 15 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक, सत्रह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर सिंह चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1753-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-1757-दो-2-52-2021.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 3 से 8 अप्रैल 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-1762-दो-2-14-2015.—श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 एवं पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-2600-दो-2-9-2022.—श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्र. B-2602-दो-2-23-2020.—श्री काशीनाथ सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा वर्तमान में जबलपुर को दिनांक 24 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2022 तक आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-2618-दो-2-59-2016.—श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 4 नवम्बर 2022 के एक दिन के ऐच्छिक अवकाश, दिनांक 5 नवम्बर 2022 के एवं दिनांक 7 नवम्बर 2022 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र.-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2023

क्र. A-1770-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 12 से 13 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2639-दो-2-55-2017.—सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।



जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्र. A-1932-दो-2-35-2021.—श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

1. दिनांक 27 से 28 मार्च 2023 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1934-दो-2-18-2023.—श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1936-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2023 के स्थानीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-1938-दो-2-63-2018.—श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 10 से 11 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2791-दो-2-53-2022.—श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 5 अप्रैल 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2794-दो-2-14-2021.—श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 8 से 13 मई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 मई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-2787-दो-2-36-2020.—श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को 1 से 4 मई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र देव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-2789-दो-2-2-2023.—श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1879-दो-2-101-2017.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1873-दो-2-3-2018.—श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1875-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1877-दो-2-64-2021.—श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

## मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 12 अप्रैल 2023

क्र.-1673-स्था.-2023.—श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 एवं अंत में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.